



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2005 (चैत्र 19, 1927)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9—APRIL 15, 2005 (CHAITRA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग	विषय-सूची	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	* 379
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	* 349
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असंविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	3
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	* 451
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	* 197
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	* 1311
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	* 105
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में प्रकाशित और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाले प्रारूप	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	379	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	349	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	357
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	451	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	197
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1311
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	105
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2005

संख्या 18-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उमक्री अति असाधारण कठिनी की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-15792 लेफ्टिनेंट जनरल मैथु मैमन, अ.वि.से.मे., वि.से.मे.*, इंजीनियर
2. आईसी-15931 लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश चन्द्र, अ.वि.से.मे., वि.से.मे.
सेना सेवा कोर
3. आईसी-16100 लेफ्टिनेंट जनरल चरणजीत सिंह चीमा, वायु रक्षा तोपखाना
4. आईसी-16139 लेफ्टिनेंट जनरल सतीश भालचन्द्र सातपुते, अ.वि.से.मे.,
इन्फैंट्री (सेवानिवृत्त)
5. आईसी-16250 लेफ्टिनेंट जनरल रघुबीर सिंह शहरावत, अ.वि.से.मे.,
वि.से.मे., आर्मी आर्डिनेस कोर (सेवानिवृत्त)
6. आईसी-16268 लेफ्टिनेंट जनरल रामचन्द्र सुब्रमनयम, इंजीनियर
7. आईसी-16567 लेफ्टिनेंट जनरल विरिन्द्र कुमार धीर, अ.वि.से.मे., ईएमई
8. आईसी-16582 लेफ्टिनेंट जनरल देवेन्द्र कुमार, वि.से.मे.*, सिगनल्स
9. आईसी-16620 लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णामूर्ति नागराज, उ.यु.से.मे., इन्फैंट्री
10. आईसी-16632 लेफ्टिनेंट जनरल अवतार सिंह, वि.से.मे., इन्फैंट्री
11. आईसी-16782 लेफ्टिनेंट जनरल राणा सुधीर कुमार कपूर, अ.वि.से.मे. से. मे.
वि.से.मे., इंजीनियर्स
12. आईसी-16818 लेफ्टिनेंट जनरल पदम पाल सिंह भन्डारी, अ.वि.से.मे., आर्मड
13. आईसी-16907 लेफ्टिनेंट जनरल मोहिन्दर पुरी, उ.यु.से.मे., इन्फैंट्री
14. आईसी-17252 लेफ्टिनेंट प्रमोद कुमार ग़ोवर, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., इंजीनियर
15. आईसी-17576 लेफ्टिनेंट जनरल अमरीक सिंह बाहिया, अ.वि.से.मे.*, इन्फैंट्री

16. आईसी-17699 लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कपूर, वि.से.मे., इन्फैंट्री
17. एमआर-02600 लेफ्टिनेंट जनरल जनक राज भारद्वाज, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. सेना मेडिकल कोर
18. डीआर-10206 लेफ्टिनेंट जनरल रमेश चन्द्र धीर, सेना दंतचिकित्सा कोर
19. आईसी-28531 मेजर जनरल तेज कृष्ण कौल, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., इन्फैंट्री
20. वाइस एडमिरल सुरीश मेहता, अ.वि.से.मे. (00727-ए)
21. वाइस एडमिरल वेंकट भरथन, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. (00790-डब्ल्यू)
22. सर्जन वाइस एडमिरल विजय कुमार सिंह, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. (75111-एफ)
23. एयर मार्शल सुनील कुमार मलिक, अ.वि.से.मे. (9002), फ्लाईंग (पायलट)
24. एयर मार्शल सतीश कुमार जैन, अ.वि.से.मे., वा.मे. (9716), फ्लाईंग (पायलट)
25. एयर मार्शल सुभाष भोजवानी, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. (9734), फ्लाईंग (पायलट)
26. एयर मार्शल अजीत भवनानी, अ.वि.से.मे., वा.मे. (10440), फ्लाईंग (पायलट)
27. एयर मार्शल हरेन्द्रजीत सिंह गारकल, वि.से.मे. (11780), प्रशासन
28. एयर मार्शल परिमल कुमार सरकार, (26480), मेडिकल (सेवानिवृत्त)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 19-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को झड़पों के दौरान उनके असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-16109 लेफ्टिनेंट जनरल हरी प्रसाद, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे. इन्फैंट्री
2. आईसी-16838 लेफ्टिनेंट जनरल मोहिन्द्र सिंह, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., इन्फैंट्री
3. आईसी-17244 लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे. इन्फैंट्री

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 20-प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आईसी-17206 लेफ्टिनेंट जनरल अनुप सिंह जमवाल, अ.वि.से.मे., वि.से.मे. तोपखाना को उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 21-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-17214 लेफ्टिनेंट जनरल मानिकत गोविन्दन गिरीश, वि.से.मे.,ईएमई
2. आईसी-17327 लेफ्टिनेंट जनरल गुरदित्त सिंह, आर्मड/मुख्यालय 2 कोर
3. आईसी-17565 लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सिंह, आर्मड/मुख्यालय 21 कोर
4. आईसी-17644 लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, वि.से.मे., आर्मड कोर
5. आईसी-19002 लेफ्टिनेंट जनरल ओम प्रकाश नंदराजोग, वि.से.मे.
इन्फैंट्री/पश्चिमी कमान मुख्यालय
6. आईसी-19234 लेफ्टिनेंट जनरल सुरेन्द्र कुमार साहनी, सेना सेवा कोर
7. आईसी-19440 लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर शर्मा, यु.से.मे.,वि.से.में, इन्फैंट्री
8. आईसी-19834 लेफ्टिनेंट जनरल हरचरनजीत सिंह पनाग, इन्फैंट्री
9. एमआर-02745 लेफ्टिनेंट जनरल अजीत कुमार बक्शी, वि.से.मे., सेना चिकित्सा कोर
10. आईसी-19058 मेजर जनरल विजय पाण्डुरंग पवार, वि.से.मे.,
इंजीनियर/उत्तरी कमान मुख्यालय (सेवानिवृत्त)
11. आईसी-19550 मेजर जनरल रणधीर कुमार मेहता, यु.से.मे., वि.से.मे., इन्फैंट्री
12. आईसी-19845 मेजर जनरल दिलीप नेमाजीराव देसाई, वि.से.मे., आर्मड
13. आईसी-19848 मेजर जनरल थोमस मैथ्यू, इन्फैंट्री/दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय
14. आईसी-19868 मेजर जनरल सर्वजीत सिंह ढिल्लन, वि.से.मे.
इन्फैंट्री/आई एम टी आर टी मुख्यालय
15. आईसी-19873 मेजर जनरल पुत्तमदम राजा गंगाधरन वि.से.मे.*, इन्फैंट्री
16. आईसी-19891 मेजर जनरल शिवशंकर पिल्लै श्रीकुमार,
सिगनल्स/उत्तरी कमान मुख्यालय

17. आईसी-23039 मेजर जनरल परमजीत सिंह, वि.से.मे.
इन्फैंट्री/मुख्यालय एटीएनकेके एण्ड जी एरिया
18. आईसी-23274 मेजर जनरल राजेश्वर सिंह, वि.से.मे., इन्फैंट्री/सीआईएफ (यू)
19. आईसी-23688 मेजर जनरल किरन किशोर कोहली, वि.से.मे.
तोपखाना/21 माउंटेन डिव मुख्यालय
20. आईसी-23978 मेजर जनरल नीलेन्द्र कुमार, वि.से.मे., जज एडवोकेट जनरल विभाग
21. आईसी-24006 मेजर जनरल प्रकाश चन्द कटोच, उ.यु.से.मे., शौर्य चक्र
इन्फैंट्री/8 माउंटेन डिव
22. आईसी-24065 मेजर जनरल कुनाल मुखर्जी, इंजीनियर
23. आईसी-24465 मेजर जनरल अशोक कुमार सैनी, से.मे., सिगनल्स
24. आईसी-24975 मेजर जनरल सतीश कुमार साहिजपाल,
इंजीनियर/उत्तरी कमान मुख्यालय
25. आईसी-26306 मेजर जनरल कुपन्डा पोन्नप्पा नन्जप्पा, वीर चक्र, इन्फैंट्री (सेवानिवृत्त)
26. आईसी-28733 मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह मेहता, वि.से.मे.
आर्मड/19 इन्फैंट्री डिवीजन मुख्यालय
27. एमआर-03158 मेजर जनरल लक्ष्मी प्रकाश सधोत्रा,
सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एण्ड आर)
28. आईसी-23671 ब्रिगेडियर बंसत कुमार पोवंर, वि.से.मे., मराठा लाइट इन्फैंट्री
29. आईसी-33557 ब्रिगेडियर रशीद इनायतुल्ला, वि.से.मे., डोगरा
30. एमआर-02962 ब्रिगेडियर गोपालपिल्लै राजगोपाल,
सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एण्ड आर)
31. आईसी-49871 मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, ग्रनेडियर/इन्फैंट्री स्कूल, मऊ
32. रियर एडमिरल नसीब सिंह नैन, वि.से.मे., (40313-डब्ल्यू)
33. रियर एडमिरल इन्द्र कुमार सलूजा, वि.से.मे., (01131-डब्ल्यू)
34. रियर एडमिरल सुनील कृष्णाजी दामले, एन.एम., वि.से.मे. (01168-बी)
35. रियर एडमिरल अनिल कुमार हाँडा, वि.से.मे., (40388-आर)
36. रियर एडमिरल रूस्तम फरामरोज कोन्ट्रेक्टर एन.एम. (01224-एफ)
37. रियर एडमिरल वेंकटरामन बालाचंद्रन, एन.एम., वि.से.मे. (50316-बी)
38. एयर मार्शल प्रमोद कुमार मेहरा, वा.मे. (11581), फ्लाईंग (पायलट)
39. एयर वाइस मार्शल अरविन्द जीत सिंह वालिया, वि.से.मे. (12155), प्रशासन

40. एयर वाइस मार्शल जय कृष्ण गुप्ता (12308), चिकित्सा
41. एयर वाइस मार्शल गुरदीप सिंह कोचर, वा.मे., (13149), फ्लाईंग (पायलट)
42. एयर कमोडोर सुशील कुमार झा (12490), परिभारिकी
43. एयर कमोडोर यश कुमार, (12872), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिक्ल)
44. एयर कमोडोर रघबीर सिंह सन्धू, वि.से.मे. (13174),
एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिक्ल)
45. एयर कमोडोर बिदान्द चंगपा नन्जपा, वि.से.मे. (13246), फ्लाईंग (पायलट)
46. एयर कमोडोर कमल सिंह, (13302), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स)
47. एयर कमोडोर अजंन कुमार गोगोई, वि.से.मे. (13382) फ्लाईंग (पायलट)
48. एयर कमोडोर कुरिकोम्बिल जोसेफ मैथ्युज, यु.से.मे. (13393), फ्लाईंग (पायलट)
49. ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन सुरेश, वा.मे. (16206), फ्लाईंग (पायलट)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 22-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को झड़पों के दौरान उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-27645 ब्रिगेडियर रामेश्वर रॉय,
जम्मू-कश्मीर राइफल/मुख्यालय 17 इन्फैंट्री ब्रिगेड
2. आईसी-30029 ब्रिगेडियर चन्द्र भान राय,
मराठा लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 8 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-30098 ब्रिगेडियर जतीन्दर सिंह कटारिया, राजपूताना राइफल
मुख्यालय 68 माउंटेन ब्रिगेड
4. आईसी-40324 कर्नल रोकश कुमार सिंह, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
5. आईसी-40825 कर्नल जगदीश चन्द रागंडा, 6 महार
6. आईसी-40933 कर्नल एम विनया चन्द्रन, 8 असम
7. आईसी-41087 कर्नल शशी शेखर प्रसाद, 7 सिख
8. आईसी-41528 कर्नल हरिन्दर सिंह, से.मे., मराठा लाइट इन्फैंट्री/41 राष्ट्रीय राइफल
9. आईसी-41582 कर्नल लाईफूकपम इबोटोम्बी सिंह, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
10. आईसी-41969 कर्नल करिपिनेनी जहवर बाबू, 21 ग्रिनडियर
11. आईसी-42885 कर्नल संजय ठाकुर, से.मे., 9 पैरा (स्पेशल फोर्स)
12. आईसी-42851 लेफ्टिनेंट कर्नल प्रादिप्ता नारायण मोहापात्रा, कीर्ति चक्र
14 सिख लाइट इन्फैंट्री
13. ग्रुप कैप्टन कुलवंत सिंह गिल, वा.मे., (15220) फ्लाईंग (पायलट)
14. विंग कमांडर सुनील कुमार (17713) फ्लाईंग (पायलट)
15. विंग कमांडर बिभूति कुमार (18495), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मकैनिकल)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 23-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल-बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-23744 मेजर जनरल विक्रम मदान, वि.से.मे., इन्फैंट्री
2. आईसी-23817 ब्रिगेडियर परविन्दर सिंह, वि.से.मे., पंजाब/दक्षिणी कमान मुख्यालय
3. आईसी-27214 ब्रिगेडियर छेत्रा बहादुर थापा, वि.से.मे., 11 गोरखा राइफल
4. आईसी-35494 कर्नल सुब्राता सहा, वि.से.मे., असम
5. आईसी-40695 कर्नल जगदीप सिंह विर्क, वि.से.मे., 61 कैवली

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 24-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-17285 मेजर जनरल गोविन्द बल्लभ त्रिपाठी, सिगनल्स (सेवानिवृत्त)
2. आईसी-19578 मेजर जनरल रणधीर सिंह बालयान, तोपखाना
3. आईसी-23034 मेजर जनरल सुरेन्द्र बीर सिंह बैन्स, इंजीनियर्स
4. आईसी-23068 मेजर जनरल श्रीविलासम नारायणन राजन
सेना सेवा कोर/दक्षिणी कमान मुख्यालय
5. आईसी-23375 मेजर जनरल कपिलेश्वर प्रसाद ढल सामांता, तोपखाना
6. आईसी-24718 मेजर जनरल प्रेम कृष्ण गोयल, तोपखाना/15 कोर मुख्यालय
7. आईसी-25482 मेजर जनरल आनन्द कुमार कपूर, सेना आयुध कोर
8. आईसी-27206 मेजर जनरल सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, सेना आयुध कोर
9. आईसी-24706 मेजर जनरल कामुला रामाचन्द्र राव, तोपखाना
10. आईसी-23287 ब्रिगेडियर अश्वनी कुमार भानोट, तोपखाना (सेवानिवृत्त)
11. आईसी-23986 ब्रिगेडियर बक्शी प्राभजीत सिंह लांबा, तोपखाना
12. आईसी-24232 ब्रिगेडियर अशोक कुमार जेतली, तोपखाना (सेवानिवृत्त)
13. आईसी-24591 ब्रिगेडियर विनोद कुमार नेगी, इंजीनियर
14. आईसी-24829 ब्रिगेडियर राजीवा राज नोटियाल, तोपखाना
15. आईसी-25427 ब्रिगेडियर सुबीर कुमार देब, तोपखाना
16. आईसी-25441 ब्रिगेडियर गोविन्द सिंह राठौर, सेना सेवा कोर
17. आईसी-25442 ब्रिगेडियर स्वतन्त्रा नन्द हाण्डा, 3 गोरखा राइफल
18. आईसी-25538 ब्रिगेडियर रबिन्द्रन कृष्णा स्वामी, महार

19. आईसी-25822 ब्रिगेडियर प्रबीर कुमार चक्रवर्ती, तोपखाना
20. आईसी-25985 ब्रिगेडियर जगपाल सिंह थिंड, तोपखाना/36 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय
21. आईसी-27409 ब्रिगेडियर कंवर प्रताप सिंह राणा,
जम्मू-कश्मीर राइफल/मुख्यालय 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
22. आईसी-27488 ब्रिगेडियर अनिल कुमार वासन, इंजीनियर/16 कोर मुख्यालय
23. आईसी-27827 ब्रिगेडियर विनय कुमार बटुरा,
4 गोरखा राइफल/59 माउंटेन ब्रिगेड मुख्यालय
24. आईसी-27899 ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम, इलैक्टॉनिक्स एवं मेकनिकल इंजीनियर्स
25. आईसी-27956 ब्रिगेडियर गुरसिमरन सिंह मलही, कवचित/44 माउंटेन ब्रिगेड मुख्यालय
26. आईसी-27972 ब्रिगेडियर ज्ञान भूषण, महार/11 माउंटेन ब्रिगेड मुख्यालय
27. आईसी-30021 ब्रिगेडियर ओम प्रसाद गुरुंग, महार/मुख्यालय 1 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
28. आईसी-30051 ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह, बिहार/104 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय
29. आईसी-30351 ब्रिगेडियर दलबीर सिंह, 5 गोरखा राइफल/53 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय
30. आईसी-30485 ब्रिगेडियर उमंग सेठी, सिख/163 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय
31. आईसी-30619 ब्रिगेडियर श्रीनिवासाचारी रेघुनाथन, 1 सिगनल्स ग्रुप
32. आईसी-31567 ब्रिगेडियर विक्रम सिंह, इंजीनियर्स/15 कोर मुख्यालय
33. आईसी-32016 ब्रिगेडियर गुरिन्दर जीत सिंह,
सिख/पश्चिमी कमान प्रादेशिक सेना ग्रुप मुख्यालय
34. आईसी-32844 ब्रिगेडियर राम प्रताप, वायु रक्षा तोपखाना
35. आईसी-32968 ब्रिगेडियर सुशील कुमार दूबे,
इलैक्टॉनिक्स एवं मेकनिकल इंजीनियर्स (सेवानिवृत्त)
36. आईसी-33058 ब्रिगेडियर त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला,
राजपूत/मुख्यालय 12 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
37. एमआर-03814 ब्रिगेडियर शिव कुमार शर्मा, सेना चिकित्सा कोर/एम एच पुणे
38. डीआर-10281 ब्रिगेडियर कुरुवडी रविशंकर,
ए डी सी/सी एम डी सी पश्चिमी कमान मुख्यालय
39. टीसी -31472 ब्रिगेडियर यशपाल सिंह मोहन, सेना डाक सेवा
40. आईसी-31633 कर्नल अरूण कुमार साहनी, तोपखाना/सी आई एफ (के) मुख्यालय
41. आईसी-34374 कर्नल सुरेश कुमार पिल्लै, सिगनल्स
42. आईसी-34664 कर्नल श्रीपाल, इंजीनियर्स

43. आईसी-37369 कर्नल अशोक कुमार गांगुली, 18 जम्मू-कश्मीर राइफल
44. आई-37895 कर्नल हरीश जोशी, सिख/6 राष्ट्रीय राइफल
45. आईसी-37913 कर्नल मार्क साइरस अस्ले अरुन पिल्लै,
1/5 गोरखा राइफल /28 असम राइफल
46. आईसी-39071 कर्नल गगन पठानिया, 12 जम्मू-कश्मीर राइफल
47. आईसी-39321 कर्नल अनिल कुमार शुक्ला, राजपूताना राइफल
48. आईसी-39924 कर्नल गुरुचरण सिंह, गार्ड/उत्तरी कमान मुख्यालय
49. आईसी-40305 कर्नल रघु राम अकेला, 5 इंजीनियर रेजीमेंट
50. आईसी-40360 कर्नल असित भाईलालभाई मिस्त्री, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
51. आईसी-41649 कर्नल बलविन्दर सिंह, गार्ड/21 राष्ट्रीय राइफल
52. एमआर-03047 कर्नल पानिकुलम जोन विनसन्ट, सेना चिकित्सा कोर/92 बेस अस्पताल
53. एमआर-03906 कर्नल रंगराजू रंगाराव,
सेना चिकित्सा कोर/आर एण्ड आर सेना अस्पताल
54. एमआर-03940 ग्रुप कैप्टन केशव मूर्ति सूर्यनारायण,
सेना चिकित्सा कोर/आर एण्ड आर सेना अस्पताल
55. आईसी-37807 लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह, डोगरा/एच एम आई
56. आईसी-43179 लेफ्टिनेंट कर्नल मेनन परपिल रवीन्द्रन, सिगनल्स
57. आईसी-44070 लेफ्टिनेंट कर्नल एस पी मलिक,
सेना आयुध कोर/18 डिवीजन आयुध यूनिट
58. आईसी-45544 लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक किणी होसदुर्ग, से.मे., गार्डस
59. आईसी-47148 लेफ्टिनेंट कर्नल अंजन कुमार दत्ता, सेना सेवा कोर
60. एमआर-04520 लेफ्टिनेंट कर्नल शिव कुमार ढींगरा,
सेना चिकित्सा कोर/403 फील्ड अंबुलैस
61. एमआर-04586 लेफ्टिनेंट कर्नल जयवीर सिंह,
सेना चिकित्सा कोर/पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडीमन्दिर
62. एमआर-04920 लेफ्टिनेंट कर्नल सुनिल कांत,
सेना चिकित्सा कोर/बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
63. एमआर-05098 लेफ्टिनेंट कर्नल हरीश चन्द्र तालान,
सेना चिकित्सा कोर/बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
64. एमआर-05257 लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार चौधरी, सेना चिकित्सा कोर
65. एमआर-06317 मेजर चन्द्र मोहन सिंह, सेना चिकित्सा कोर/150 जनरल अस्पताल

66. वी-00434 मेजर सुधीर कुमार वाई,
रिमाउंड एवं पशु चिकित्सा कोर/44 एम वी एच (पी बी जी)
67. एसएस-38920 कैप्टन शैलेन्द्र सिंह नेगी, 7/11 गोरखा राइफल
68. जेसी-756602 सुबेदार राजेश चौधरी
इलैक्ट्रॉनिक्स एवं मेकनिकल इंजीनियर्स/एम सी ई एम ई
69. जेसी-307381 नायब सुबेदार इंगनेस टिकी, इंजीनियर्स/एम ई जी एवं सेन्टर
70. जेसी-623561 नायब सुबेदार तरुणदीप राय, 5/8 गोरखा राइफल
71. 15571410 हवलदार माझी सेवांयन, इंजीनियर्स/ब्रिगेड एवं केन्द्र किरकी
72. कमोडोर पुनुगु अनंतरामन, (40405-बी)
73. कमोडोर धर्मबीर सिंह, (50346-वाई)
74. कमोडोर वेलेंटाईन सिक्वेरा, (40515-बी)
75. कमोडोर कपिल टिक्कू, (40527-एफ)
76. कमोडोर राज बीर सिंह भदाना, (50414-ए)
77. कमोडोर राकेश भटनागर, (50519-आर)
78. कमोडोर जागेश्वर चौधरी, (60258-जेड)
79. कमोडोर अशोक मेहरोत्रा, (40654-डब्ल्यू)
80. कमोडोर ललित मोहन खन्ना, (50564-टी)
81. कमोडोर कण्दाडै पद्मनाबन रामचन्द्रन, (01737-वाई)
82. कमोडोर गोट्टिपाटि विनोद बाबु, (01699-के)
83. कमोडोर चोरनूर गाजी सिलार खान, (01730-एफ)
84. कमोडोर जलंदर कुमार, (01787-के)
85. कमांडर नेविल मलाव, (03055-टी)
86. भंवर सिंह चरण, एम सी पी ओ 2 सी डी 1, (149387-टी)
87. हरदीप सिंह रंधावा, एम सी ई एल पी 1, (203612-एफ)
88. एयर वाइस मार्शल अजित प्रसाद त्यागी, (13010), मीटियारालाजी
89. ग्रुप कैप्टन विजय कुमार कपूर, (13410), परिभारिकी
90. ग्रुप कैप्टन पंकज त्यागी, (13901) मेडिकल
91. ग्रुप कैप्टन पी सी ग्रोवर, (14400), प्रशासन/विधि
92. ग्रुप कैप्टन राजगोपाल सीतारमन (14713), प्रशासन

93. ग्रुप कैप्टन मुन्ना राजेन्द्र सिंह, (14768), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिकल)
94. ग्रुप कैप्टन राजेश कौल, (14929), प्रशासन/एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
95. ग्रुप कैप्टन वीरेन्द्र मोहन खन्ना, (15071), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिकल)
96. ग्रुप कैप्टन सुभाष चन्द्र लूथरा, (15105), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रॉनिक्स)
97. ग्रुप कैप्टन अजित शंकरराव भोंसले, (15327), फ्लाईंग (नैवीगेटर)
98. ग्रुप कैप्टन जसबीर सिंह वालिया, वा.मे., (15684), फ्लाईंग (पायलट)
99. ग्रुप कैप्टन येरानिल्ली तिरुमल्ला वासूदेव, (15804), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रॉनिक्स)
100. ग्रुप कैप्टन चन्द्रशेखरन हरिकुमार, (15881), फ्लाईंग (पायलट)
101. ग्रुप कैप्टन मन मोहन उपाध्याय, (15907), प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर
102. ग्रुप कैप्टन सूर्य नारायण मूर्ति, (15945), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रॉनिक्स)
103. ग्रुप कैप्टन प्रवीण कुमार, (15970), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिकल)
104. ग्रुप कैप्टन विद्या सागर भारती. यु.से.मे., वा.मे., (16611), फ्लाईंग (पायलट)
105. ग्रुप कैप्टन तेजिन्द्र पाल सिंह (16781), फ्लाईंग (पायलट)
106. ग्रुप कैप्टन अरविन्द्र सिंह बुटोला, वा.मे., (16789), फ्लाईंग (पायलट) एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रॉनिक्स)
107. ग्रुप कैप्टन प्रवीण भट्ट, (16970), फ्लाईंग (पायलट)
108. विंग कमांडर मनेचेनेल्लौर श्रीनिवासन शंकर (15810) एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रॉनिक्स)
109. विंग कमांडर कुकुनूर उदय कुमार रेड्डी, (16462), लेखा
110. विंग कमांडर महेन्द्र कुमार गुलेरिया, (17130), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिकल)
111. विंग कमांडर निर्मल सिंह जम्वाल, वा.मे., (17156), फ्लाईंग (पायलट)
112. विंग कमांडर अमित त्यागी, (17654), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकैनिकल)
113. स्क्वाड्रन लीडर कण्ठेन्गलम नेल्लीसेरी संतोष, (20674), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रॉनिक्स)
114. 635940 वारंट अफसर अयधेश कुमार सिंह, रेडार फिटर
115. 689695 सार्जेंट वीरेन्द्र कुमार , इलेक्ट्रिकल फिटर

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 25-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-50573 मेजर अनिल गोर्शी,
एस एम, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
2. आईसी-54116 मेजर पथियेरी सुनील कुमार, एस एम
मैकनाइज्ड इन्फैंट्री/28 असम राइफल

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 26-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-38287 कर्नल बाल कृष्ण यादव,
सिख लाइट इन्फैंट्री/2 राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-42797 कर्नल अनुबीर सिंह चहल, 16 मराठा लाइट इन्फैंट्री
3. आईसी-42017 लेफ्टिनेंट कर्नल जसविंदर सिंह,
सेना विमानन/27 आर एण्ड ओ फ्लाइट
4. आईसी-43820 लेफ्टिनेंट कर्नल गोगीरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी,
जम्मू-कश्मीर राइफल/28 राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-48640 मेजर इंद्रजीत सिंह, शौर्य चक्र, 16 जाट
6. आईसी-49313 मेजर अमित शर्मा, कवचित/27 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
7. आईसी-49896 मेजर अमिय कुमार त्रिपाठी,
सिख/6 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
8. आईसी-50206 मेजर जसविंदर सिंह, 18 गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल
9. आईसी-50984 मेजर पुनी चन्द कौशल, तोपखाना/11 असम राइफल
10. आईसी- 51252 मेजर आशुतोष कुमार सिंह, 19 राजपूत
11. आईसी-51847 मेजर मागीमायराज पीटर सिलेस्टीन, 13 सिख लाइट इन्फैंट्री
12. आईसी-53749 मेजर जमीर अहमद खान, जाट/19 असम राइफल
13. आईसी-55852 मेजर क्षेत्रीमायुम सान्ता सिंह, तोपखाना/6 असम राइफल
14. आईसी-56856 मेजर ओमीश सिंह राठौर, सेना सेवा कोर/16 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-57614 मेजर प्रदीप कुमार शर्मा, 18 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)
16. आईसी-57652 मेजर अजय प्रताप हमीर, राजपूत/23 राष्ट्रीय राइफल

17. आईसी-58591 मेजर हरमनजीत लीडर, 10 पैरा (स्पेशल फोर्स)
18. आईसी-58844 मेजर सिद्धार्थ धनकर, मद्रास/38 राष्ट्रीय राइफल
19. आईसी-60259 मेजर साकेत सुमन, 3 सिख
20. आईसी-61114 मेजर गुरप्रीत सिंह, 11 राजपूताना राइफल
21. एसएस-38192 मेजर गिरिश कुमार वीटी, 19 राजपूत
22. 21252 स्क्वाड्रन लीडर अजीत रामानाथन,
भारतीय वायुसेना/153 हेलिकॉप्टर यूनिट
23. आईसी-56113 कैप्टन अशीष चतुर्वेदी, कवचित/28 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-58559 कैप्टन अनिल कुमार सिंह राठौर,
सेना सेवा कोर/13 राष्ट्रीय राइफल
25. आईसी-59066 कैप्टन मोहित शर्मा, 1 पैरा (स्पेशल फोर्स)
26. आईसी-59340 कैप्टन आनंद सिंह चौहान,
सिख लाइट इन्फैंट्री/49 राष्ट्रीय राइफल
27. आईसी-61655 कैप्टन मनोज गुरंग, 3 राजपूत
28. आईसी-61795 कैप्टन अमीत त्रिपाठी, 7 गढ़वाल राइफल
29. एसएस-38304 कैप्टन रमेश कुमार रनवा, तोपखाना/29 राष्ट्रीय राइफल
30. एसएस-38422 कैप्टन सिद्धार्थ मुकर्जी, ग्रनेडियर/39 राष्ट्रीय राइफल
31. एसएस-39090 कैप्टन डेनियल खोली, 5/8 गोरखा राइफल
32. आईसी-62510 लेफ्टिनेंट रोमेल बिस्वास, 3 राजपूत
33. आईआरएलए-65849 डिप्टी कमांडेंट सरन देव,
सीमा सुरक्षा बल/मुख्यालय 8 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
34. जेसी-469124 सुबेदार राजेन्द्र सिंह शेखावत, 11 राजपूताना राइफल
35. जेसी-548619 सुबेदार रामेन्द्रा सिन्हा, 8 असम
36. जेसी-412856 नायक सुबेदार खेम राज, 1 पैरा (स्पेशल फोर्स) (मरणोपरान्त)
37. जेसी-508892 नायक सुबेदार भजन सिंह,
सिख लाइट इन्फैंट्री/19 राष्ट्रीय राइफल
38. 2591392 हवलदार बुनेनी वैकटेशवरलु, मद्रास/8 राष्ट्रीय राइफल
39. 2593724 हवलदार अनिल कुमार विश्वम्बरम, मद्रास/8 राष्ट्रीय राइफल
40. 2988784 हवलदार भेरू सिंह, 9 राजपूत

41. 2991097 हवलदार नवाब सिंह बुन्देला, 19 राजपूत
42. 3177315 हवलदार विजय सिंह, 21 जाट
43. 3181773 हवलदार राजपाल सिंह, 16 जाट
44. 4062857 हवलदार सोबन सिंह, 3 गढ़वाल राइफल
45. 4467936 हवलदार सरदूल सिंह, 13 रिख लाइट इन्फैंट्री
46. 13617004 हवलदार जगमोहन सिंह, 10 पैरा (स्पेशल फोर्स) (मरणोपरांत)
47. 13617045 हवलदार सतपाल सिंह, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
48. 13747689 हवलदार मस्त राम,
जम्मू-कश्मीर राइफल/28 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
49. 13749494 हवलदार तारा चन्द, 4 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)
50. 2481067 नायक राज कुमार, 13 पंजाब (मरणोपरांत)
51. 2686317 नायक कृष्ण कुमार, ग्रनेडियर/12 राष्ट्रीय राइफल
52. 2888451 नायक जय सिंह, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
53. 3184272 नायक महावीर प्रसाद, 16 जाट
54. 4069013 नायक ओम प्रकाश, 11 गढ़वाल राइफल
55. 4073455 नायक राजेन्द्र सिंह, 16 गढ़वाल राइफल
56. 4562865 नायक विहिरे प्रकाश चंपतराव,
महार/1राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
57. 13756812 नायक प्यार सिंह, 17 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)
58. 13758741 नायक योगराज सिंह, 1 पैरा (स्पेशल फोर्स) (मरणोपरांत)
59. 14428258 नायक जय कुमार, तोपखाना/7 राष्ट्रीय राइफल
60. 15124214 नायक सुरजीत सिंह,
तोपखाना /193 फील्ड रेजीमेंट (मरणोपरांत)
61. 2891481 लांस नायक देवेन्द्र सिंह, 11 राजपूताना राइफल
62. 3396899 लांस नायक हरभजन सिंह, सिख/16 राष्ट्रीय राइफल
63. 4186568 लांस नायक कुन्दन सिंह राठौर, कुमाऊ/13 राष्ट्रीय राइफल
64. 4569139 लांस नायक लखबीर सिंह, 10 पैरा (स्पेशल फोर्स) (मरणोपरांत)
65. 5754107 लांस नायक राम कुमार थापा, 5/8 गोरखा राइफल
66. 14413414 लांस नायक राम बिनय शर्मा, वायु रक्षा तोपखाना/10 राष्ट्रीय राइफल

67. 15131291 लॉस नायक आनन्धन सुब्रामणी, तोपखाना/41 राष्ट्रीय राइफल
68. 2482656 सिपाही पदमजीत, 25 पंजाब
69. 2490740 सिपाही लखविन्दर सिंह, पंजाब/ 22 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
70. 2491400 सिपाही अश्वनी कुमार, पंजाब/22 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
71. 2795780 सिपाही अनिल पाटिल,
मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
72. 3400162 सिपाही रंजीत सिंह, सिख/16 राष्ट्रीय राइफल
73. 3401994 सिपाही रणधीर सिंह, सिख/16 राष्ट्रीय राइफल
74. 3404786 सिपाही शाम सिंह, सिख/6 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
75. 4000709 सिपाही जय प्रकाश, डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
76. 4189680 सिपाही प्रकाश सिंह, 9 कुमाऊ (मरणोपरांत)
77. 4365338 सिपाही गवांग तेजिय, 15 असम, (मरणोपरांत)
78. 4366844 सिपाही डोलो जेलिसॉ, असम/35 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
79. 4367883 सिपाही एच लालहिमंगलियाना, असम/42 राष्ट्रीय राइफल
80. 4368784 सिपाही सोनम रिनचिन, 15 असम (मरणोपरांत)
81. 4575520 सिपाही संजय सरकार, 12 महार (मरणोपरांत)
82. 115189 राइफलमैन मोहम्मद अब्दुल सत्तार, 11 असम राइफल
83. 124390 राइफलमैन खुन्द्राकपम चन्द्र कुमार सिंह, 12 असम राइफल
84. 143938 राइफलमैन विंगहियामंग, 14 असम राइफल
85. 194044 राइफलमैन के आर चान, 19 असम राइफल
86. 193434 राइफलमैन गिनखो लाल वाइफे, 19 असम राइफल
87. 2200853 राइफलमैन के जे थोमस, 22 असम राइफल
88. 3301003 राइफलमैन लाल गोलेन खोलहोऊ, 33 असम राइफल
89. 5047859 राइफलमैन अमित थापा, 3/1 गोरखा राइफल (मरणोपरांत)
90. 9101796 राइफलमैन मोहम्मद जाविद, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल (कमांडो)
91. 9102888 राइफलमैन फारुख अहमद बाबा,
जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/9 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
92. 9103462 राइफलमैन कुलदीप कुमार, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री

93. 13761812 राइफलमैन परशोत्तम कुमार,
जम्मू-कश्मीर राइफल/3 राष्ट्रीय राइफल
94. 13762260 राइफलमैन संजीव कुमार,
जम्मू-कश्मीर राइफल/28 राष्ट्रीय राइफल
95. 15337016 सैपर निरंजन कुमार सिंह, इंजीनियर, 3 राष्ट्रीय राइफल
96. 3193311 पैराट्रूपर राजू सिंह, 10 पैरा (स्पेशल फोर्स) (मरणोपरांत)
- ✓ 97. 13621943 पैराट्रूपर चत्तर सिंह, 21 पैरा (स्पेशल फोर्स)
- ✓ 98. 13624136 पैराट्रूपर लेइतनथेम सुदाम सिंह, 21 पैरा (स्पेशल फोर्स)
99. 2696373 ग्रनेडियर डडवाल संजीव जसवंत सिंह, ग्रनेडियर/39 राष्ट्रीय राइफल
100. 2697208 ग्रनेडियर नाथु राम, 12 ग्रनेडियर

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 27-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. कमांडर सत्यव्रत दाम, (03313-बी)
2. लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक कंकन, (41686-आर)
3. सर्जन लेफ्टिनेंट वाइकिंग भानू, (75792-बी)
4. लेफ्टिनेंट सुमीत पब्बी, (05007-बी)
5. राकेश कुमार, पी ओ एम ए, (153418-बी)
6. विकास कुमार, पी ओ एम ए, (122944-डब्ल्यू)
7. रविन्दर कुमार, सी। सी डी III, (130041-जेड)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 28-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. विंग कमांडर शशी कांत मिश्र (19570), फ्लाईंग (पायलट)
2. स्क्वाड्रन लीडर अवनीश कुमार उपाध्याय (19893), फ्लाईंग (पायलट)
3. स्क्वाड्रन लीडर मनु चौधरी (19896), फ्लाईंग (पायलट)
4. स्क्वाड्रन लीडर कोलाल कृष्णमूर्ति वेणुगोपाल (20459), फ्लाईंग (पायलट)
5. स्क्वाड्रन लीडर रणधीर सिंह (22345), फ्लाईंग (पायलट)

बरुण मिश्रा
निदेशक

संख्या 29-प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आईसी-41741 कर्नल संतोष कुमार कुरूप, से०मे० मराठा लाइट इन्फैंट्री/17 राष्ट्रीय राइफल को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

बरुण मिश्रा
निदेशक

संख्या 30-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | वी-292 मेजर जनरल ब्रह्मपाल सिंह पंवार, रिमाउंट एंड वेटर्निटी कोर | सेना |
| 2. | आईसी-25107 ब्रिगेडियर मोहिंदर कुमार इदनानी, गाडर्स | " |
| 3. | आईसी-25836 ब्रिगेडियर हरिंदर पाल सिंह क्लेयर, गाडर्स/मुख्यालय पूर्वी कमान | " |
| 4. | आईसी-30353 ब्रिगेडियर सईद अता हसनैन, वीएसएम* गढ़वाल राइफल/मुख्या.12 इन्फैंट्री ब्रिगेड | " |
| 5. | आईसी-31324 ब्रिगेडियर कोठिनेठ सुरेन्द्रनाथ, कवचित | " |
| 6. | आईसी-32482 ब्रिगेडियर जसपौल सिंह, विसेमे, इंटेजीजेंस | " |
| 7. | आईसी-33015 ब्रिगेडियर ईप्पेन जैकब कोचेक्कन, विसेमे, 5 गोरखा राइफल/मुख्यालय 9 सेक्टर असम राइफल | " |
| 8. | आईसी-35471 कर्नल बिपिन रावत, विसेमे, 11 गोरखा राइफल | " |
| 9. | आईसी-36741 कर्नल विजय कुमार, विसेमे, डोगरा | " |
| 10. | आईसी-37962 कर्नल अमरजीत सिंह, 33 असम राइफल | " |
| 11. | आईसी-38298 कर्नल जसविंदर सिंह चोपड़ा, आर्टिलरी | " |
| 12. | आईसी-39666 कर्नल हरीश चन्द्र पाठक, 15 जम्मू-कश्मीर राइफल | " |
| 13. | आईसी-40007 कर्नल येंदुरु वेंकट कृष्णा मोहन, 7/11 गोरखा राइफल | " |
| 14. | आईसी-41230 कर्नल सुनील दत्त मेहता, जाट/45 राष्ट्रीय राइफल | " |
| 15. | आईसी-41323 कर्नल संजय साह, गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल | " |
| 16. | आईसी-41478 कर्नल टिनायकर शैलेश सदाशिव, 10 पैराशूट रेजिमेंट(स्पेशल फोर्स) | " |
| 17. | आईसी-41613 कर्नल संजय कुमार आचार्य, सिख लाइट इन्फैंट्री/19 राष्ट्रीय राइफल | " |
| 18. | आईसी-41755 कर्नल रजनीश शर्मा, राजपूत/23 राष्ट्रीय राइफल | " |
| 19. | आईसी-41858 कर्नल कोदन्डा पूवैया करिअप्पा, राजपूताना राइफल/9 राष्ट्रीय राइफल | " |
| 20. | आईसी-42475 कर्नल सवनीत सिंह, 7 गढ़वाल राइफल | " |
| 21. | आईसी-43245 कर्नल एनएस राजा सुब्रामणि, 16 गढ़वाल राइफल | " |

22. एमआर 03694 कर्नल तपन सिन्हा, सेना चिकित्सा कोर/ सेना अस्पताल (आर एंड आर) ”
23. एमआर-04223 कर्नल चंदर मोहन, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर) ”
24. एमआर-04310 कर्नल गुरविंदर सिंह चोपड़ा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर) ”
25. एमआर-03957 विंग कमांडर राकेश चंदोला, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर) ”
26. आईसी-43352 लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण दत्त गणेश दत्त जोशी, इंटेलीजेंस कोर/739 इंटर एंड एफएस यूनिट ”
27. आईसी-43671 लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि कुमार छिकारा, जम्मू-कश्मीर राइफल/1 लद्दाख स्काउट ”
28. आईसी-45310 लेफ्टिनेंट कर्नल विजेंदर कुमार राठौर, इंटेलीजेंस कोर/237 इंटेलीजेंस एंड एफएस यूनिट ”
29. आईसी-48057 लेफ्टिनेंट कर्नल बृजेश दत्ता, सिगनल/61 डब्ल्यूईयू ”
30. एमआर-04722 लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल ढल, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर) ”
31. एमआर-04915 लेफ्टिनेंट कर्नल तरुण कौल, सेना चिकित्सा कोर/बेस अस्पताल दिल्ली कैंट ”
32. आईसी-46681 मेजर अनूप सिंह गिल, सेना विमानन/21 आर एंड ओ फ्लाइट ”
33. आईसी-47842 मेजर अनिल कुमार, 110 इंजीनियर रेजिमेंट ”
34. आईसी-52041 मेजर सुरेंदर पवन कुमार, सेना विमानन/21 आर एंड ओ फ्लाइट ”
35. आईसी-52687 मेजर प्रवीर कुमार पाल, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर/एसडीडी ”
36. आईसी-58797 मेजर रोहित उनियाल, आर्टिलरी/96 फील्ड रेजिमेंट ”
37. आईसी-54456 कैप्टन विनय सदासिवन, महार/हाई एल्टीच्यूड वारफेयर स्कूल ”
38. 4076760 लांरा नायक बलवंत सिंह, 6 गढ़वाल राइफल ”

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 31-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. कमोडोर नंद कुमार झा, विसेमे (02374-डब्ल्यू)
2. कमोडोर वेलुस्वामी करुणानिधि (50572-के)
3. कमोडोर कल्याथि नरसिम्हन वैद्यनाथन (40665-डब्ल्यू)
4. कैप्टन बलदेव राज तनेजा (50711-ए)
5. कमांडर राकेश कुमार मेहता (02577-एफ)
6. कमांडर जी प्रकाशन (02881-वाई)
7. कमांडर मुकुल अस्थाना (03003-जेड)
8. कमांडर(टीएस) अजय रंजन सहाय (02714-टी)

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 32-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणतापूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं:-

1. ग्रुप कैप्टन श्रीधर पाणिकर राधाकृष्णन नायर (16040) फ्लाईंग (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन शोविक राय (16088) फ्लाईंग (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन सुनील जयंत नानोडकर (16555) फ्लाईंग (पायलट)
4. विंग कमांडर हेमंत नारायण भागवत (16423) प्रशासन/पैरा जम्प इन्सट्रक्टर
5. विंग कमांडर नायनी हरीश (17135) फ्लाईंग (पायलट)
6. विंग कमांडर श्रीकुमार प्रभाकरन (17318) फ्लाईंग (पायलट)
7. विंग कमांडर एस हरि कृष्णन नायर (17338) फ्लाईंग (पायलट)
8. विंग कमांडर संदेश प्रभाकर वागले (17710) फ्लाईंग (पायलट)
9. विंग कमांडर उमेश राखरा (18071) फ्लाईंग (पायलट)
10. विंग कमांडर संजय आनंद कुंटे (18073) फ्लाईंग (पायलट)
11. विंग कमांडर किशोर कुमार खेड़ा (18256) फ्लाईंग (पायलट)
12. विंग कमांडर मोहन गुप्ता (18562) फ्लाईंग (पायलट)
13. विंग कमांडर रवि खन्ना (18565) फ्लाईंग (पायलट) (मरणोपरांत)
14. 668479 जूनियर वारंट अफसर सुरेन्द्र कुमार महान्ती, फ्लाइट गनर

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 33-प्रेज/2005-राष्ट्रपति 'सेनाध्यक्ष' तथा 'वायुसेनाध्यक्ष' से रक्षा मंत्री द्वारा प्राप्त 'डिस्पैच में उल्लेख' के लिए निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए आदेश प्रदान करते हैं:-

ऑपरेशन हिफाजत

1. आई सी-41223 कर्नल रवीन्द्र सिंह रावत, 4/4 गढ़वाल राइफल्स
2. आई सी-47111 मेजर महेन्द्र कुमार जोशी, 19 गढ़वाल राइफल्स
3. आई सी-53854 मेजर सत्येन्द्र त्रिपाठी, जी आर, 7 असम राइफल्स
4. एस एस-37700 मेजर चन्द्र पाल सिंह खाती, एस सी, 4/4 गढ़वाल राइफल्स
5. 172687 हवलदार गजेन्द्र नाथ डेका, 17 असम राइफल्स

ऑपरेशन रक्षक

6. 18785-एस विंग कमांडर आशुतोष लाल, आई ए एफ, ए ई बी, ए एफ
7. जे सी-438614 सुबेदार वेंकिटाचलम एस, 28 मद्रास
8. 2983096 हवलदार श्याम पाल सिंह, 17 राजपूत
9. 4174854 हवलदार भूपेन्द्रा सिंह, 6 कुमाऊँ
10. 13617717 हवलदार राम इकबाल प्रसाद साह, 5 पैरा
11. 13757625 लांस नायक बलविन्द्र सिंह, 10 जम्मू कश्मीर राइफल्स

ऑपरेशन पराक्रम

12. आई सी- 49635 मेजर कमल किशोर, 25 पंजाब
13. आई सी-60419 मेजर प्रमोद सिंह चौहान, 12 गढ़वाल राइफल्स
14. आई सी-61077 कैप्टन अमित हूडा, आर्टिलरी, 32 फील्ड रेजिमेंट
15. एस एस-38600 कैप्टन सचिन बाली, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
16. एस सी-00300 कैप्टन सजीव एन, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
17. आई सी- 61937 लेफ्टिनेंट दिवाकर कपूर, आर्टिलरी, 320 फील्ड रेजिमेंट
18. आई सी-62281 लेफ्टिनेंट चेतन मनहास, ए ओ सी, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
19. आई सी-62763 लेफ्टिनेंट प्रवीन शर्मा, इंट. 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
20. जे सी- 177992 सूबेदार मेजर जगदीश सिंह, 3 सिख
21. जे सी-612312 सूबेदार राम लक्ष्मण थापा, 4 गोरखा राइफल, 15 आर आर
22. जे सी-449385 नायब सूबेदार करनैल सिंह राणा, ग्रेनेडियर्स, 29 आर आर
23. जे सी-529225 नायब सूबेदार भगत सिंह, गढ़वाल राइफल्स, 36 आर आर
24. 3387242 हवलदार सुखविन्दर सिंह, 5 सिख
25. 4067147 हवलदार गोपाल चन्द्र, 7 गढ़वाल राइफल्स
26. 4359259 हवलदार पाउलेमथांग, 8 असम
27. 4552051 हवलदार बैशाखू, 4 महार
28. 3183320 लांस/हवलदार मुकेश कुमार, 21 जाट
29. 4194734 सिपाही आनन्द बल्लभ दुबे, कुमाऊँ, 50 आर आर
30. 4076120 राइफलमैन बीरेन्द्र सिंह, 12 गढ़वाल राइफल्स
31. 4082645 राइफलमैन दिनेश प्रसाद, 7 गढ़वाल राइफल्स
32. 9104693 राइफलमैन मोहम्मद अकरम, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
33. 9107619 राइफलमैन भारत भूषण, 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
34. 13625091 पैराट्रूपर महेश कुमार, 10 पैरा (एस एफ)

ऑपरेशन राइनो

35. आई सी-50469 मेजर अनिल रामन, 5/8 गढ़वाल राइफल
36. आई सी-56940 मेजर लोकेश कांडपाल, 5/8 गढ़वाल राइफल
37. आर सी-987 मेजर अरविन्द कुमार थापा, 5/8 गढ़वाल राइफल
38. आई सी-60244 कैप्टन विवेक रेहनी ए एस सी, 17 पंजाब
39. जे सी-539045 नायब सूबेदार हरि क्रिशन पांडे, 8 कुमाऊँ
40. 2889380 नायक राज कुमार, 7 राजपूताना राइफल्स
41. 4364634 सिपाही वी जोर्दिथारा, 10 असम
42. 5755779 राइफलमैन यम बहादुर गुरुंग, 5/8 गढ़वाल राइफल

भारतीय वैमानिकी टुकड़ी, संयुक्त राज्य ऑपरेशन, कांगो (वायु सेना)

43. स्क्वाड्रन लीडर दीपक चन्द्र पान्डेय (19223) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
44. स्क्वाड्रन लीडर सुशांत दत्ता (19243) , परिभारिकी
45. स्क्वाड्रन लीडर मनीष सिंह (20995) फ्लाईंग (पायलट)
46. 657360 वारंट अफसर ओम पाल तोमर, एयर फ्रेम फिटर
47. 679448 सार्जेंट पियूष मोहन जंगिड, एयर फील्ड सेफ्टी ऑपरेटर
48. 728234 सार्जेंट राधा रमन मिश्रा, फ्लाइट इंजीनियर
49. 820921 एन० सी० (ई) रबीन्द्र नाथ मैती, सफाई वाला

बरुण मित्रा
निदेशक

संख्या 34-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. विंग कमांडर सुधीर कुमार शर्मा (17717) फ्लाईंग (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 मई, 2004)

विंग कमांडर सुधीर कुमार शर्मा, फ्लाईंग (पायलट), 05 अगस्त, 2002 से एक हेलीकाप्टर यूनिट की कमान सम्भाल रहे हैं।

11 मई, 2004 को, विंग कमांडर शर्मा को माउंट कामेट के लिए पर्वतारोहण अभियान के तीन सदस्यों को तत्काल निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया था जो खराब मौसम के कारण गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। ये दुर्घटनायें 23,260 फुट उच्च तुंगता पर हुई थीं, जो चीता हेलीकाप्टर के 23,000 फुट की कार्य-सीमा से परे है। उन लोगों के गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उन्हें नीचे उतारना असंभव था। विंग कमांडर शर्मा उक्त घटना-स्थल के लिए अपने चीता हेलीकाप्टर से रवाना हो गए तथा जख्मी सदस्यों का पता चलते ही यह मांप गए कि बर्फ से ढकी चोटी पर स्थित बिना तैयार एक छोटे से टेबलटॉप स्लोपिंग क्षेत्र पर हेलीकाप्टर उतारना ही एकमात्र विकल्प था। इस तरह से हेलीकाप्टर उतारने के लिए असाधारण साहस तथा उत्कृष्ट उड़ान दक्षता जरूरी है। हेलीकाप्टर के नियंत्रण में जरा भी चूक हो जाने पर भंयकर दुर्घटना हो सकती है जिसमें पायलट के प्राणों को खतरा हो सकता है।

विश्व में किसी ने भी बिना तैयार, हिमाच्छादित तथा स्लोपिंग भू-खंड से इतनी अधिक ऊंचाई पर हताहतों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकाप्टर को उतारने का शायद ही प्रयास किया हो। विंग कमांडर शर्मा ने भंयकर तथा कष्टकर स्थितियों, खराब मौसम में 120 कि.मी. प्रति घंटे से भी अधिक गति से बहने वाली प्रचंड हवाओं के झोंकों के बावजूद, दृढ़-निश्चय, अदम्य साहस का परिचय देते हुए तथा अपनी सुरक्षा की तकनीक भी परवाह न करते हुए, हताहतों को निकालने के लिए घटनास्थल पर एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार अपना हेलीकाप्टर उतारा। असंभव जैसी स्थितियों में इनका साहसपूर्ण कार्य, तीनों पर्वतारोहियों का जीवन

बचाने में सहायक सिद्ध हुआ जिनकी मृत्यु निश्चित थी। 23,260 फुट की ऊंचाई से यह बचाव-कार्य, किसी हेलीकाप्टर द्वारा अब तक सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने तथा हताहतों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य है और इस प्रक्रिया में विश्व रिकार्ड बना, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा मान्यता प्रदान दी गई।

विंग कमांडर सुधीर कुमार शर्मा ने असंभव जैसी स्थितियों के समक्ष असाधारण वीरता और उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया तथा पर्वतारोहियों को बचाया।

2.

आई सी-61381 कैप्टन सज्जन सिंह मलिक

10 पैरा (स्पेशल फोर्स) (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 8 जुलाई, 2004)

08 जुलाई, 2004 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के घने जंगलों के निकट एक गांव में आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए घात लगाए गए थे। कैप्टन सज्जन सिंह मलिक और उनकी टुकड़ी के तीन कमांडो गांव में पत्थर से बनी एक नीची दीवार के पीछे थे जहां से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते को देखा जा सकता था। 0340 बजे, जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ व्यक्तियों के कदमों की आवाज सुनाई दी। ललकारे जाने पर, वे गोलियां चलाते हुए आड़ के लिए भागे। कैप्टन मलिक ने अंधेरे में ही गोलावारी शुरू की और उनको उलझा कर एक आतंकवादी को मार गिराया।

गोली के छर्रे के जख्मों से रक्त स्राव हो जाने पर भी वे अपना स्थान बदलते रहे और तीन दिशाओं से शत्रुओं की गोलीबारी में अपने साथियों को प्रेरित करते हुए निर्देश देते रहे। दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे दो नागरिक दीवार के साथ सटे थे। शत्रु को अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु उन्होंने एक बाड़े को लांघा जिससे उनके आस-पास गोलियों की बौछार हुई और नागरिकों को निकलने का मौका मिल गया। उनकी टांग में पुनः गोली लग गई। इलाज करवाने से इंकार कर उन्होंने अपने साथियों को कवर गोलीबारी का निर्देश दिया और अपने जख्मों के कारण वीरगति को प्राप्त होने से पूर्व दोनों आतंकवादियों को मारने के लिए, निकट पहुंच कर एक हथगोला फेंका।

कैप्टन सज्जन सिंह मलिक ने आतंकवादियों के समक्ष उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस, नेतृत्व का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेना की उच्च परम्पराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान किया।

बरुण मित्रा

निदेशक

संख्या 35-प्रेज/2005-राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1.

श्री विष्णु सिंह शेखावत

कांस्टेबल, 52 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 मई, 2003)

05 मई, 2003 को सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने जम्मू-कश्मीर के अंततनाग जिले के टी संद गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली सूचना के आधार पर तलाशी और घेराबंदी कार्रवाई शुरू की। लक्ष्य मकान को 0600 बजे घेर लिया गया था। सैनिकों को देखते ही आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। कांस्टेबल विष्णु सिंह शेखावत तथा एक अन्य कांस्टेबल ने स्वेच्छा से आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए लक्ष्य मकान में घुसने की प्रहल की। कांस्टेबल शेखावत रेंगते हुए मकान के करीब पहुंच गए जबकि दूसरे कांस्टेबल ने आतंकवादियों को उलझाए रखा। मकान पर सामने पहुंचकर कांस्टेबल शेखावत ने छेकर मारकर दरवाजा खोल दिया और आतंकवादियों पर गोलियों की बौछार कर दी। तथापि, इस प्रक्रिया में, वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। अपने जख्मों की परवाह किए बिना, वे लगातार गोलीबारी करते रहे और मूर्छित होकर गिरने से पहले उन्होंने मौके पर ही एक आतंकवादी को मार डाला। बाद में, कांस्टेबल शेखावत अपने जख्मों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए। मकान में छिपे अन्य आतंकवादी बाद में पुलिस कार्रमियों द्वारा मार गिराये गए।

कांस्टेबल विष्णु सिंह शेखावत ने आतंकवादियों से लड़ने में उत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्य तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान किया।

2.

श्री छोटे लाल**हेड कांस्टेबल, 93 बटालियन, सी आर पी एफ**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 10 जुलाई, 2003)

10 जुलाई, 2003 को, लगभग 1000 बजे, सी आर पी एफ प्लाटून की एक टुकड़ी आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए असम के खयारबाड़ी गांव में गई। एक कांस्टेबल ने झोपड़ियों के निकट कीचड़ में सनी दो साइकिलें खड़ी देखी। वह हेड कांस्टेबल छोटे लाल के साथ आतंकवादियों की तलाश में झोपड़ियों की ओर चल पड़े। झोपड़ी में छिपे उल्फा आतंकवादियों ने इन पर गोलीबारी शुरू कर दी। श्री छोटे लाल के साथी कांस्टेबल का दायां हाथ गोली लगने से जख्मी हो गया। हेड कांस्टेबल छोटे लाल ने जख्मी कांस्टेबल को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और अपनी कार्बाइन से आतंकवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक आतंकवादी घायल हो गया तथा सैन्य टुकड़ी पर फेंकने के लिए एक हथगोला निकाल लिया। यह देखकर, हेड कांस्टेबल छोटे लाल तुरंत झपट पड़े और उस आतंकवादी का हाथ पकड़ लिया तथा हाथापाई शुरू हो गई। आतंकवादी जमीन पर गिर पड़ा तथा हेड कांस्टेबल छोटे लाल उसके ऊपर चढ़ गए। तभी आतंकवादी के हाथ में ही हथगोला फट गया और आतंकवादी वहीं ढेर हो गया जबकि हेड कांस्टेबल छोटे लाल के हाथों और पैर में गंभीर चोटें आईं। बाद में, उस आतंकवादी की पहचान उल्फा के एरिया कमांडर के रूप में की गई। इस प्रकार, हेड कांस्टेबल छोटे लाल ने अपने वीरतापूर्ण कार्य से न केवल अपने साथी की जान बचाई, अपितु एक दुर्दांत आतंकवादी को भी मार गिराया।

हेड कांस्टेबल छोटे लाल ने आतंकवादियों से लड़ने में उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस तथा आक्रामक भावना का प्रदर्शन किया।

3.

जेसी-3300020 सूबेदार केहर सिंह**33 असम राइफल (मरणोपरांत)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 जुलाई, 2003)

10 जुलाई, 2003 को, पूर्वी सेक्टर के चंदेल जिले में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जो फिरोती के लिए दो व्यक्तियों को बंधक बनाये हुए थे। आपरेशन की योजना बनाई गई और सूबेदार केहर सिंह ने स्वेच्छा से संदिग्ध मकान की तलाशी के लिए घटक प्लाटून के नेतृत्व का भार संभाला।

सैन्य टुकड़ी, घुप अंधेरी रात और लगातार बारिश में घने जंगल से होते हुए लम्बे और दुर्गम मार्ग से लक्ष्य क्षेत्र में पहुंच गई। 11 जुलाई 2003 को 0230 बजे तक बाहरी घेराबंदी कर दी गई। सूबेदार केहर सिंह घटक प्लाटून के साथ छिपते-छिपते जंगल से बढ़ते रहे और स्पॉटर सहित घटक के छह सदस्यों के साथ संदिग्ध मकान के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने एक संतरी को

देख लिया। अपना मोर्चा संभालते समय जे सी ओ फिसल गए जिससे संतरी सावधान हो गया और उसने तुरंत गोलीबारी कर दी। यह देखकर कि संतरी को पता चल गया है और अब अपनी पार्टी के लिए खतरा है, सूबेदार केहर सिंह ने उसी क्षण उनके छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया। छिपे आतंकवादियों की ओर से की गई गोलियों की बीछार में सूबेदार केहर सिंह के जबड़े पर गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद, वे अपने साथी के साथ मकान में घुस गए और एक छुपे आतंकवादी को मार गिराया। उसके बाद वे मकान के अन्दर वीरगति को प्राप्त हो गए।

सूबेदार केहर सिंह ने अपने साथियों को बचाते समय साहस, दृढ़-निश्चय, परमनिष्ठा और साथी-भाव का प्रदर्शन किया तथा आतंकवादियों से लड़ने में सर्वोच्च बलिदान किया।

4.

श्री अमरदीप सिंह, अमृतसर, पंजाब

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 05 सितंबर, 2003)

अमृतसर के एक व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में पटना गए हुए थे। उन्होंने 05 सितंबर, 2003 की शाम 7 बजकर 45 मिनट पर पटना रेलवे स्टेशन जाने के लिए बकरगंज मार्केट से एक रिक्शा लिया। अचानक ही, मोटर साइकिलों पर सवार और रिवाल्वरों से लैस चार डाकुओं ने बन्दूक की नोक पर उनका सामान लूटने का प्रयास किया। एक डाकू ने श्री सिंह के ऊपर दो गोलियां दाग दी, जो उनके दायाँ बाजू में लगीं। एक क्षण के लिए, जख्मी श्री सिंह ने अपना सामान एक डाकू को थमा दिया। जब उस डाकू का ध्यान सामान की ओर गया तो श्री सिंह ने तुरंत ही अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और सामान छीनने वाले डाकू पर दो गोलियां दाग दीं। गोलियां उस डाकू के सिर और सीने में लगीं, जिसके कारण वह उसी क्षण ढेर हो गया। दूसरे डाकू ने उनकी ओर बढ़ने का प्रयास किया। श्री सिंह ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी। उन्होंने तीसरे डाकू पर निशाना साधकर उसकी टांग में गोली मार दी। चौथा डाकू भाग गया। गोली लगने से जख्मी हो जाने के कारण उनका खून बह रहा था। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से अस्पताल ले जाने के लिए अनुरोध किया, किंतु कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। वह स्वयं ही 2 कि.मी. पैदल चलकर निकट के एक अस्पताल में पहुंचे, जहाँ आपरेशन करके उनके दाएं बाजू से गोलियां निकाल दी गईं। उनके इस साहसपूर्ण कार्य की स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों, मीडिया तथा राजनीतिकों ने प्रशंसा की।

इस प्रकार, श्री अमरदीप सिंह ने सूझ-बूझ, अनुकरणीय पहलशक्ति दिखाई तथा अतुलनीय साहस और हिम्मत के साथ डाकुओं का सामना किया। वह डाकुओं से न केवल अपना जीवन और सामान बचाने में सफल हुए, अपितु उन्होंने समाज के बुरे तत्वों का सफाया करके लोगों की मदद भी की।

5.

आईसी-59140 मेजर सम्राट मैती**1 नागा (मरणोपरान्त)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 23 फरवरी, 2004)

23 फरवरी, 2004 को पूर्वी सेक्टर के गारों पहाड़ियों में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर मेजर सम्राट मैती ने 21 अन्य रैंको के साथ एक तलाशी मिशन चलाया।

2100 बजे, जब उनकी पार्टी तुरा जिले (मेघालय) के एक गांव की ओर जा रही थी, तभी उनकी पार्टी, आतंकवादियों की ओर से की गई भारी अचूक गोलीबारी की चपेट में आ गई, जिसमें मेजर सम्राट मैती गोली लगने से जख्मी हो गए। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना कर्तव्य परायणता से बढ़कर मेजर सम्राट मैती ने तत्काल जवाबी गोलीबारी कर दी तथा दोनों ओर से गोलियां बरसने लगीं। आतंकवादियों ने एक झोपड़ी के अन्दर से सूराख बनाकर मेजर सम्राट मैती पर हथगोले फेंके तथा स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की, किंतु अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करके फौलादी हिम्मत का प्रदर्शन करते हुए मेजर सम्राट मैती ने अपने सैनिकों को पुनः संगठित किया और बाजू से आगे बढ़कर आतंकवादियों पर सुरक्षित गुप्त ठिकाने को छोड़ने के लिए दबाव डाला। गोलियों से जख्मी होने के कारण मेजर सम्राट मैती ने 2230 बजे अपनी अंतिम सांस ली तथा मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान किया।

क्षेत्र की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में आई ई डी सामग्री और विस्फोटक बरामद हुए। अतः मेजर सम्राट मैती द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल आतंकवादी अपना सुरक्षित गुप्त ठिकाना छोड़ने पर मजबूर हुए, अपितु आई ई डी लगाने की उनकी योजना को नाकाम करके भारी विनाश को भी टाल दिया।

मेजर सम्राट मैती ने भारतीय सेना की श्रेष्ठ परम्पराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान करने से पहले अदम्य साहस, आक्रामक-भावना, असाधारण ऊर्जा तथा निर्भीक नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

6.

आईसी-46327 मेजर महाराज कृष्ण भट्ट**तोपखाना/45 राष्ट्रीय राइफल**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 फरवरी, 2004)

27 फरवरी 2004 को, विशिष्ट खूफिया सूचना पर कार्य करते हुए मेजर भट्ट ने दीर्घ जटिल अभियान के बाद बटालियन आपरेशन का नेतृत्व करते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक गांव के निकट एक नाले में कुशलतापूर्वक अपने सैन्य दस्ते को तैनात किया। आतंकवादियों से सामना होने पर, यह अफसर झपट पड़ा और अदम्य साहस तथा तीव्र प्रतिक्रिया

का प्रदर्शन करते हुए आग उगलने वाली अपनी असाल्ट राइफल से दो आतंकवादियों को मार डाला। दोनों ओर से भरी गोलीबारी के बीच अन्य आतंकवादी आड़ के लिए दौड़ पड़े। रात्रि में ठंड अधिक होने के बावजूद, मेजर भट्ट ने अपने साथियों को हताहत होने से बचाने के लिए अत्यधिक धैर्य के साथ, चुस्त घेराबंदी में सैन्य दस्तों को पुनः तैनात किया और अगली सुबह सुविचारित तलाशी के लिए प्रतीक्षा करने लगे। मेजर भट्ट के साथी ने दो आतंकवादियों को देखा, जिसमें से उसने एक का सफाया कर दिया। चौथा छिपा हुआ आतंकवादी कारगर गोलीबारी करता रहा। मेजर भट्ट ने प्राणघातक खतरे के सामने आगे बढ़कर नेतृत्व करके उत्कृष्ट वीरता और प्रशंसनीय मानसिक क्षमता का प्रदर्शन किया और आतंकवादी पर पीछे से हमला करके उसे मार डाला। सभी चारों आतंकवादी मारे गए और एक पीका गन बरामद की गयी।

इस प्रकार, मेजर महाराज कृष्ण भट्ट ने आतंकवादियों के समक्ष अद्वितीय साहस तथा पराक्रम का प्रदर्शन किया।

7.

2688156 लांस नायक पप्पू राम**प्रनेडियर/29 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)**

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 अप्रैल, 2004)

17 अप्रैल 2004 को लांस नायक पप्पू राम त्वरित कार्रवाई दल के सदस्य के रूप में जम्मू-कश्मीर के एक गांव में खुफिया सूचना इकट्ठा करने के मिशन पर थे। इस दल ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जो उन्हें देखकर तेज-तेज कदमों से भागे जा रहे थे। दल ने पीछा किया और घर-घर की तलाशी ली।

लांस नायक पप्पू राम और उनका अफसर एक गोशाला में घुस ही रहे थे कि अन्दर से आतंकवादियों द्वारा उन पर भारी गोलीबारी कर दी गई। हालांकि बहादुर लांस नायक पप्पू राम गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, फिर भी वह दूट पड़े और एक आतंकवादी को मार गिराया जिसकी पहचान बाद में डिवीजनल कमांडर, पट्टन, बारामुला और सोपुर के रूप में की गई थी। तभी दूसरे आतंकवादी ने लांस नायक पप्पू राम पर गोलीबारी करके उन्हें घातक रूप से जख्मी कर दिया। लांस नायक पप्पू राम लगातार जूझते रहे। आतंकवादी एक गुप्त ठिकाने में घुस गया और लगातार गोलीबारी करने लगा। हालांकि, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था फिर भी लांस नायक पप्पू राम रेंगते हुए प्रवेश द्वार तक पहुंचे और मौके पर शहीद होने से पहले हथगोला फेंककर तथा गुप्त ठिकाने के भीतर गोलियां दागकर उसे मार डाला। लांस नायक पप्पू राम की निर्भीक कार्रवाई से प्रेरित होकर उनके दल ने तीसरे आतंकवादी को मार गिराया। पर्याप्त मात्रा में शस्त्र, गोलाबारूद, मोबाइल फोन और अन्य युद्ध जैसा सामान बरामद हुआ।

लांस नायक पप्पू राम ने अकेले ही दो आतंकवादियों को मारने में अदम्य भावना, उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया तथा सर्वोच्च बलिदान किया।

8.

आईसी-58799 कैप्टन राजेन्द्र सिंह कडवासरा
तोपखाना/41 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रमावी तारीख : 12 जून, 2004)

कैप्टन राजेन्द्र सिंह कडवासरा, जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के जनरल एरिया से तथाकथित भागे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए छह सदस्यों के एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों की गतिविधि को रोकने के लिए इस दल को रास्ते पर तैनात किया गया था।

लगभग 0520 बजे, इस दल ने पांच आतंकवादियों को आते हुए देखा। अनुकरणीय सूझ-बूझ का परिचय देते हुए, दल ने आतंकवादियों को निकट आने दिया और सही मौका आते ही गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने घनी झाड़ियों का लाभ उठाते हुए ए के तथा यू बी जी एल से जवाबी गोलीबारी कर दी। इस प्रक्रिया में, एक सिपाही गोली लगने से जखमी हो गया। इस हादसे से विचलित हुए बिना, इस अफसर ने प्रथम उपचार की व्यवस्था करने के लिए अन्य सदस्यों को निर्देश देते हुए एल एम जी उठाई और आतंकवादियों पर आक्रमण कर दिया। असीम धैर्य तथा दृढ़-निश्चय का प्रदर्शन करते हुए, यह अफसर अपने साथी के साथ बाजू से निकट पहुंचे और घमासान गोलीबारी में अकेले ही दो आतंकवादियों को मार डाला। इसी बीच, एक अन्य आतंकवादी ने काफी निकट से गोलीबारी कर दी। कैप्टन कडवासरा ने कवरिंग फायर के लिए अपने साथी को पुनः तैनात किया और तीसरे आतंकवादी को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। समय पर इस साहसिक कार्रवाई के फलस्वरूप सैनिकों को हताहत होने से बचाया जा सका तथा चार आतंकवादियों को मारा जा सका जिसमें से कैप्टन कडवासरा ने स्वयं तीन आतंकवादियों को मार गिराया तथा हथियार और गोलाबारूद बरामद किया।

इस प्रकार, कैप्टन राजेन्द्र सिंह कडवासरा ने आतंकवादियों से लड़ते हुए निकट की लड़ाई में असाधारण वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।

बरुण मित्रा
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2005

No. 18-Pres./2005—The President is pleased to approve the award of the "Param Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. IC-15792 LIEUTENANT GENERAL MATHEW MAMMEN, AVSM, VSM*, ENGINEERS
2. IC-15931 LIEUTENANT GENERAL JAGDISH CHANDER, AVSM, VSM, ARMY SERVICE CORPS
3. IC-16100 LIEUTENANT GENERAL CHARANJIT SINGH CHIMA, AIR DEFENCE ARTILLERY
4. IC-16139 LIEUTENANT GENERAL SATISH BHALCHANDRA SATPUTE, AVSM
INFANTRY (RETIRED)
5. IC-16250 LIEUTENANT GENERAL RAGHUBIR SINGH SHAHRAWAT, AVSM, VSM ARMY
ORDINANCE CORPS (RETIRED)
6. IC-16268 LIEUTENANT GENERAL RAMCHANDRA SUBRAMANYAM, ENGINEERS
7. IC-16567 LIEUTENANT GENERAL VIRINDER KUMAR DHIR, AVSM
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
8. IC-16582 LIEUTENANT GENERAL DAVINDER KUMAR, VSM*, SIGNALS
9. IC-16620 LIEUTENANT GENERAL KRISHNAMURTHY NAGARAJ, UYSM, INFANTRY
10. IC-16632 LIEUTENANT GENERAL AVTAR SINGH, VSM, INFANTRY
11. IC-16782 LIEUTENANT GENERAL RANA SUDHIR KUMAR KAPUR, AVSM, SM, VSM
ENGINEERS
12. IC-16818 LIEUTENANT GENERAL PADAM PAL SINGH BHANDARI, AVSM, ARMoured
13. IC-16907 LIEUTENANT GENERAL MOHINDER PURI, UYSM, INFANTRY
14. IC-17252 LIEUTENANT GENERAL PRAMOD KUMAR GROVER, AVSM, VSM, ENGINEERS
15. IC-17576 LIEUTENANT GENERAL AMRIK SINGH BAHIA, AVSM*, INFANTRY
16. IC-17699 LIEUTENANT GENERAL ASHOK KAPUR, VSM, INFANTRY

17. MR-02600 LIEUTENANT GENERAL JANAK RAJ B. ARDWAJ, AVSM, VSM, ARMY MEDICAL CORPS
18. DR-10206 LIEUTENANT GENERAL RAMESH CHANDER DHIR, ARMY DENTAL CORPS
19. IC-28531 MAJOR GENERAL TEJ KRISHEN KAUL, AVSM, VSM, INFANTRY
20. VICE ADMIRAL SUREESH MEHTA, AVSM (00727-A)
21. VICE ADMIRAL VENKAT BHARATHAN, AVSM, VSM (00790-W)
22. SURGEON VICE ADMIRAL VIJAY KUMAR SINGH, AVSM, VSM (75111- F)
23. AIR MARSHAL SUNIL KUMAR MALIK, AVSM (9002), FLYING (PILOT)
24. AIR MARSHAL SATISH KUMAR JAIN, AVSM, VM (9716), FLYING (PILOT)
25. AIR MARSHAL SUBHASH BHOJWANI, AVSM VSM (9734), FLYING (PILOT)
26. AIR MARSHAL AJIT BHAVNANI, AVSM, VM (10440), FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL HARENDRAJIT SINGH GARKAL, VSM (11780), ADMINISTRATION
28. AIR MARSHAL PARIMAL KUMAR SARKAR (26480), MED (RETIRED)

BARUN MITRA
Director

No. 19—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Uttam Yuddh Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order during hostilities:-

1. IC-16109 LIEUTENANT GENERAL HARI PRASAD, PVSM, AVSM, VSM, INFANTRY
2. IC-16838 LIEUTENANT GENERAL MOHINDER SINGH, PVSM, AVSM, INFANTRY
3. IC-17244 LIEUTENANT GENERAL NIRBHAY SHARMA, PVSM, AVSM, VSM, INFANTRY

BARUN MITRA
Director

No.20—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Bar to Ati Vishisht Seva Medal**" to **IC-17206 Lieutenant General Anup Singh Jamwal, AVSM, VSM, Artillery** for distinguished service of an exceptional order.

BARUN MITRA
Director

No. 21—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Ati Vishisht Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-17214 LIEUTENANT GENERAL MANIKATH GOVINDAN GIRISH, VSM, ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
2. IC-17327 LIEUTENANT GENERAL GURDITAR SINGH ARMOURED/HQ 2 CORPS
3. IC-17565 LIEUTENANT GENERAL ADITYA SINGH ARMOURED/HQ 21 CORPS
4. IC-17644 LIEUTENANT GENERAL DALJEET SINGH ARMOURED CORPS
5. IC-19002 LIEUTENANT GENERAL OM PRAKASH NANDRAJOG, VSM, INFANTRY/HQ WESTERN COMMAND
6. IC-19234 LIEUTENANT GENERAL SURENDRA KUMAR SAHNI, ARMY SERVICE CORPS
7. IC-19440 LIEUTENANT GENERAL SUDHIR SHARMA, YSM, VSM, INFANTRY
8. IC-19834 LIEUTENANT GENERAL HARCHARANJIT SINGH PANAG, INFANTRY
9. MR-02745 LIEUTENANT GENERAL AJIT KUMAR BAKSHI, VSM, ARMY MEDICAL CORPS
10. IC-19058 MAJOR GENERAL VIJAY PANDURANG PAWAR, VSM, ENGINEERS/HQ NORTHERN COMMAND (RETIRED)
11. IC-19550 MAJOR GENERAL RANDHIR KUMAR MEHTA, YSM, VSM, INFANTRY
12. IC-19845 MAJOR GENERAL DILIP NEMAJIRAO DESAI, VSM ARMOURED
13. IC-19848 MAJOR GENERAL THOMAS MATHEW, INFANTRY/HQ DELHI AREA
14. IC-19868 MAJOR GENERAL SARABJIT SINGH DHILLON, VSM, INFANTRY/HQ IMTRAT
15. IC-19873 MAJOR GENERAL PUTTAMMADAM RAJAH GANGADHARAN, VSM* INFANTRY

16. IC-19891 MAJOR GENERAL SIVASANKARA PILLAI SREE KUMAR, SIGNALS/HQ NORTHERN COMMAND
17. IC-23039 MAJOR GENERAL PARAMJIT SINGH, VSM INFANTRY/HQ ATNKK & G AREA
18. IC-23274 MAJOR GENERAL RAJESHWAR SINGH, VSM INFANTRY/CIF (U)
19. IC-23688 MAJOR GENERAL KIRON KISHORE KOHLI, VSM, ARTILLERY/HQ 21 MOUNTAIN DIVISION
20. IC-23978 MAJOR GENERAL NILENDRA KUMAR, VSM, JUDGE ADVOCATE GENERAL'S DEPARTMENT
21. IC-24006 MAJOR GENERAL PRAKASH CHAND KATOCH, UYSM, SC, INFANTRY/HQ 8 MOUNTAIN DIVISION
22. IC-24065 MAJOR GENERAL KUNAL MUKHERJEE, ENGINEERS
23. IC-24465 MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR SAINI, SM, SIGNALS
24. IC-24975 MAJOR GENERAL SATISH KUMAR SAHJAPAL, ENGINEERS/HQ NORTHERN COMMAND
25. IC-26306 MAJOR GENERAL KUPPANDA PONNAPPA NANJAPPA, VrC, INFANTRY (RETIRED)
26. IC-28733 MAJOR GENERAL RAJENDRA SINGH MEHTA, VSM, ARMOURED/HQ 19 INFANTRY DIVISION
27. MR-03158 MAJOR GENERAL LUXHMI PRAKASH SADHOTRA, ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
28. IC-23671 BRIGADIER BASANT KUMAR PONWAR, VSM MARATHA LIGHT INFANTRY
29. IC-33557 BRIGADIER RASHEED ENAYATHULLAH, VSM, DOGRA
30. MR-02962 BRIGADIER GOPALAPILLAI RAJAGOPAL, ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL (R&R)
31. IC-49871 MAJOR RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE, GRENADIERS/INFANTRY SCHOOL, MHOW
32. REAR ADMIRAL NASIB SINGH NAIN, VSM (40313-W)
33. REAR ADMIRAL INDRA KUMAR SALUJA, VSM (01131-W)
34. REAR ADMIRAL SUNIL KRISHNAJI DAMLE, NM, VSM (01168-B)
35. REAR ADMIRAL ANIL KUMAR HANDA, VSM (40388-R)
36. REAR ADMIRAL RUSTOM FARAMROZE CONTRACTOR, NM (01224-F)
37. REAR ADMIRAL VENKATARAMAN BALACHANDRAN, NM, VSM (50316-B)

38. AIR MARSHAL PRAMOD KUMAR MEHRA, VM (11581) FLYING (PILOT)
39. AIR VICE MARSHAL ARVIND JEET SINGH WALIA, VSM (12155), ADMINISTRATION
40. AIR VICE MARSHAL JAI KRISHAN GUPTA (12308), MEDICAL
41. AIR VICE MARSHAL GURDIP SINGH KOCHAR, VM (13149), FLYING (PILOT)
42. AIR COMMODORE SUSHIL KUMAR JHA (12490), LOGISTICS
43. AIR COMMODORE YASH KUMAR (12872), AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
44. AIR COMMODORE RAGHBIR SINGH SANDHU, VSM (13174),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
45. AIR COMMODORE BIDANDA CHENGAPA NANJAPA, VSM (13246), FLYING (PILOT)
46. AIR COMMODORE KAMAL SINGH (13302), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
47. AIR COMMODORE ANJAN KUMAR GOGOI, VSM (13382), FLYING (PILOT)
48. AIR COMMODORE KUZHIKOMBIL JOSEPH MATHEWS, YSM (13393), FLYING (PILOT)
49. GROUP CAPTAIN BALAKRISHNAN SURESH, VM (16206), FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Director

No. 22—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Yuddh Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order during hostilities:-

1. IC-27645 BRIGADIER RAMESHWAR ROY,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/HQ 17 INFANTRY BRIGADE
2. IC-30029 BRIGADIER CHANDRA MAN RAI,
MARATHA LIGHT INFANTRY/HQ 8 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
3. IC-30098 BRIGADIER JATINDER SINGH KATARIA,
RAJPUTANA RIFLES/HQ 68 MOUNTAIN BRIGADE
4. IC-40324 COLONEL RAKESH KUMAR SINGH, PARA/31 RASHTRIYA RIFLES (COMMANDO)
5. IC-40825 COLONEL JAGDISH CHAND RANGRA, 6 MAHAR
6. IC-40933 COLONEL M VINAYA CHANDRAN, 8 ASSAM
7. IC-41087 COLONEL SHASHI SHEKHAR PRASAD, 7 SIKH
8. IC-41528 COLONEL HARINDER SINGH, SM,
MARATHA LIGHT INFANTRY/41 RASHTRIYA RIFLES
9. IC-41582 COLONEL LAIPHRAKPAM IBOTOMBI SINGH,
13 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
10. IC-41969 COLONEL KARIPINENI JAHWAR BABU, 21 GRENADIERS
11. IC-42885 COLONEL SANJAY THAKUR, SM, 9 PARA (SPECIAL FORCES)
12. IC-42851 LIEUTENANT COLONEL PRADIPTA NARAYAN MOHAPATRA, KC,
14 SIKH LIGHT INFANTRY
13. GROUP CAPTAIN KULWANT SINGH GILL, VM (15220), FLYING (PILOT)
14. WING COMMANDER SUNIL KUMAR (17713), FLYING (PILOT)
15. WING COMMANDER BIBHUTI KUMAR (18495),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

BARUN MITRA
Director

No. 23-Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Bar to Vishisht Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:-

1. IC-23744 MAJOR GENERAL VIKRAM MADAN, VSM INFANTRY
2. IC-23817 BRIGADIER PARVINDER SINGH, VSM
PUNJAB/HQ SOUTHERN COMMAND
3. IC-27214 BRIGADIER CHHETRA BAHADUR THAPA, VSM
11 GORKHA RIFLE
4. IC-35494 COLONEL SUBRATA SAHA, VSM, ASSAM
5. IC-40695 COLONEL JAGDEEP SINGH VIRK, VSM
61 CAVALRY

BARUN MITRA
Director

No. 24—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Vishisht Seva Medal**" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:-

1. IC-17285 MAJOR GENERAL GOVIND BALLABH TRIPATHI SIGNALS (RETIRED)
2. IC-19578 MAJOR GENERAL RANDHIR SINGH BALYAN ARTILLERY
3. IC-23034 MAJOR GENERAL SURINDAR BIR SINGH BAINS ENGINEERS
4. IC-23068 MAJOR GENERAL SHRIVILASAM NARAYANAN RAJAN,
ARMY SERVICE CORPS/HQ WESTERN COMMAND
5. IC-23375 MAJOR GENERAL KAPILESWAR PRASAD DHAL SAMANTA, ARTILLERY
6. IC-24718 MAJOR GENERAL PREM KRISHAN GOEL ARTILLERY/HQ 15 CORPS
7. IC-25482 MAJOR GENERAL ANAND KUMAR KAPUR, ARMY ORDINANCE CORPS
8. IC-27206 MAJOR GENERAL SATYENDRA PRASAD SINHA, ARMY ORDINANCE CORPS
9. IC-24706 MAJOR GENERAL KAMMULA RAMACHANDRA RAO, ARTILLERY
10. IC-23287 BRIGADIER ASHWANI KUMAR BHANOT, ARTILLERY (RETIRED)
11. IC-23986 BRIGADIER BAKSHI PRABHJIT SINGH LAMBA, ARTILLERY
12. IC-24232 BRIGADIER ASHOK KUMAR JAITLEY, ARTILLERY (RETIRED)
13. IC-24591 BRIGADIER VINOD KUMAR NEGI, ENGINEERS
14. IC-24829 BRIGADIER RAJEEVA RAJ NAUTIYAL, ARTILLERY
15. IC-25427 BRIGADIER SUBIR KUMAR DEB, ARTILLERY
16. IC-25441 BRIGADIER GOVIND SINGH RATHORE, ARMY SERVICE CORPS
17. IC-25442 BRIGADIER SWATANTARTA NAND HANDA, 3 GORKHA RIFLES
18. IC-25538 BRIGADIER RAVINDRAN KRISHNA SWAMY,
MAHAR/HQ NORTHERN COMMAND

19. IC-25822 BRIGADIER PRABIR KUMAR CHAKRAVORTY, ARTILLERY
20. IC-25985 BRIGADIER JAGPAL SINGH THIND, ARTILLERY/HQ 36 INFANTRY BRIGADE
21. IC-27409 BRIGADIER KANWAR PRATAP SINGH RANA,
JAMMU & KASHMIR RIFLES/HQ 2 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
22. IC-27488 BRIGADIER ANIL KUMAR WASON, ENGINEERS/HQ 16 CORPS
23. IC-27827 BRIGADIER VINAY KUMAR BATURA,
4 GORKHA RIFLES/HQ 59 MOUNTAIN BRIGADE
24. IC-27899 BRIGADIER POGULA GANESHAM,
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
25. IC-27956 BRIGADIER GURSIMRAN SINGH MALHI,
ARMOURED/HQ 44 MOUNTAIN BRIGADE
26. IC-27972 BRIGADIER GYAN BHUSHAN, MAHAR/HQ 11 MOUNTAIN BRIGADE
27. IC-30021 BRIGADIER OM PRASAD GURUNG,
MAHAR/HQ 1 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
28. IC-30051 BRIGADIER RAJINDER SINGH, BIHAR/HQ 104 INFANTRY BRIGADE
29. IC-30351 BRIGADIER DALBIR SINGH, 5 GORKHA RIFLES/HQ 53 INFANTRY BRIGADE
30. IC-30485 BRIGADIER UMONG SETHI, SIKH/HQ 163 INFANTRY BRIGADE
31. IC-30619 BRIGADIER SRINIVASACHARI REGHUNATHAN, 1 SIGNAL GROUP
32. IC-31567 BRIGADIER VIKRAM SINGH, ENGINEERS/HQ 15 CORPS
33. IC- 32016 BRIGADIER GURINDER JIT SINGH, SIKH/TA GROUP HQ WC
34. IC-32844 BRIGADIER RAM PRATAP, AIR DEFENCE ARTILLERY
35. IC-32968 BRIGADIER SUSHIL KUMAR DUBEY,
ELECTRONIC AND MECHANICAL ENGINEERS (RETIRED)
36. IC-33058 BRIGADIER TRIVENI PRASAD SHUKLA,
RAJPUT/HQ 12 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
37. MR-03814 BRIGADIER SHIV KUMAR SHARMA, ARMY MEDICAL CORPS/MH PUNE
38. DR-10281 BRIGADIER KURUVADI RAVISHANKAR,
ARMY DENTAL CORPS/CMDC HQ WC
39. TC-31472 BRIGADIER YASHPAL SINGH MOHAN, ARMY POSTAL SERVICE
40. IC-31633 COLONEL ARUN KUMAR SAHNI, ARTILLERY/HQ CIF(K)

41. IC-34374 COLONEL SURESH KUMAR PILLAI, SIGNALS
42. IC-34664 COLONEL SHRI PAL, ENGINEERS
43. IC-37369 COLONEL ASHOK KUMAR GANGULY, 18 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
44. IC-37895 COLONEL HARISH JOSHI, SIKH/6 RASHTRIYA RIFLES
45. IC-37913 COLONEL MARK CYRUS ASHLEY AARON PILLAY,
5 GORKHA RIFLES/28 ASSAM RIFLES
46. IC-39071 COLONEL GAGAN PATHANIA, 12 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
47. IC-39321 COLONEL ANIL KUMAR SHUKLA, RAJPUTANA RIFLES
48. IC-39924 COLONEL GURCHARAN SINGH, GUARDS/HQ NORTHERN COMMAND
49. IC-40305 COLONEL RAGHU RAM AKELLA, 5 ENGINEER REGIMENT
50. IC-40360 COLONEL ASIT BHAILALBHAI MISTRY, 12 MARATHA LIGHT INFANTRY
51. IC-41649 COLONEL BALWINDER SINGH, GUARDS/21 RASHTRIYA RIFLES
52. MR-03047 COLONEL PANIKULAM JOHN VINCENT,
ARMY MEDICAL CORPS/92 BASE HOSPITAL
53. MR-03906 COLONEL RANGARAJU RANGARAO,
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL (R&R)
54. MR-03940 GROUP CAPTAIN KESHAVA MURTHY SURYANARAYANA,
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
55. IC-37805 LIEUTENANT COLONEL VIJAY SINGH, DOGRA/HMI
56. IC-43179 LIEUTENANT COLONEL MENON PARAPIL RAVINDRAN, SIGNALS
57. IC-44070 LIEUTENANT COLONEL SP MALIK,
ARMY ORDNANCE CORPS/18 DIV ORDNANCE UNIT
58. IC-45544 LIEUTENANT COLONEL ASHOK KINI HOSDURG, SM, GUARDS
59. IC-47148 LIEUTENANT COLONEL ANJAN KUMAR DUTTA, ARMY SERVICE CORPS
60. MR-04520 LIEUTENANT COLONEL SHIV KUMAR DHINGRA,
ARMY MEDICAL CORPS/403 FIELD AMBULANCE
61. MR-04586 LIEUTENANT COLONEL JAIVIR SINGH
ARMY MEDICAL CORPS/CH HQ WESTERN COMMAND
62. MR-04920 LIEUTENANT COLONEL SUNIL KANT
ARMY MEDICAL CORPS/BASE HOSPITAL, DELHI CANTT

63. MR-05098 LIEUTENANT COLONEL HARISH CHANDRA TALAN,
ARMY MEDICAL CORPS/BASE HOSPITAL, DELHI CANTT
64. MR-05257 LIEUTENANT COLONEL AJAY KUMAR CHOUDHARY,
ARMY MEDICAL CORPS
65. MR-05317 MAJOR CHANDER MOHAN SINGH,
ARMY MEDICAL CORPS/150 GENERAL HOSPITAL
66. V-00434 MAJOR SUDHEER KUMAR Y,
REMOUNT AND VETERINARY CORPS/44 MVH(PBG)
67. SS-38920 CAPTAIN SHAILENDRA SINGH NEGI, 7/11 GORKHA RIFLES
68. JC-756602 SUBEDAR RAJESH CHOUDHARY,
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/ MC EME
69. JC-307381 NAIB SUBEDAR IGNACE TIRKEY, ENGINEERS/MEG & CENTRE
70. JC-623561 NAIB SUBEDAR TARUNDEEP RAI, 5/8 GORKHA RIFLES
71. 15571410 HAVILDAR MAJHI SAWAIYAN, ENGINEERS/BEG & CENTRE KIRKEE
72. COMMODORE PUNUGU ANANTHARAMAN (40405-B)
73. COMMODORE DHARMBIR SINGH (50346-Y)
74. COMMODORE VALENTINE SEQUEIRA (40515-B)
75. COMMODORE KAPIL TIKKU (40527-F)
76. COMMODORE RAJ BIR SINGH BHADANA (50414-A)
77. COMMODORE RAKESH BHATNAGAR (50519-R)
78. COMMODORE JAGESHWAR CHAUDHARY (60258-Z)
79. COMMODORE ASHOK MEHROTRA (40654-W)
80. COMMODORE LALIT MOHAN KHANNA (50564-T)
81. COMMODORE KANDADAI PADMANABHAN RAMACHANDRAN (01737Y)
82. COMMODORE GOTTIPATI VINODA BABU (01699-K)
83. COMMODORE CHORNUR GHAZI SILAR KHAN (01730-F)
84. COMMODORE JALANDAR KUMAR (01787-K)
85. COMMANDER NEVIL MALAO (03055-T)
86. BHANWAR SINGH CHARAN, MCPO II CD I (149387-T)

87. HARDEEP SINGH RANDHAWA, MCPLP I (203612-F)
88. AIR VICE MARSHAL AJIT PRASAD TYAGI (13010) METEOROLOGY
89. GROUP CAPTAIN VIJAY KUMAR KAPUR (13410), LOGISTICS
90. GROUP CAPTAIN PANKAJ TYAGI (13901), MEDICAL
91. GROUP CAPTAIN PC GROVER (14400) ADMINISTRATION/LEGAL
92. GROUP CAPTAIN RAJAGOPAL SITARAMAN (14713) ADMINISTRATION
93. GROUP CAPTAIN MUNNA RAJENDRA SINGH (14768),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
94. GROUP CAPTAIN RAJESH KAUL (14929),
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
95. GROUP CAPTAIN VIRENDER MOHAN KHANNA (15071),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
96. GROUP CAPTAIN SUBHAS CHANDRA LUTHRA (15105),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
97. GROUP CAPTAIN AJIT SHANKARRAO BHONSLE (15327), FLYING(NAVIGATOR)
98. GROUP CAPTAIN JASBIR SINGH WALIA, VM (15684), FLYING (PILOT)
99. GROUP CAPTAIN YERANILLY TIRUMALA VASUDEO (15804),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
100. GROUP CAPTAIN CHANDRASHEKHARAN HARI KUMAR (15881), FLYING (PILOT)
101. GROUP CAPTAIN MAN MOHAN UPADHYAYA (15907),
ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
102. GROUP CAPTAIN SURYA NARAYANA MURTI (15945),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
103. GROUP CAPTAIN PRAVEEN KUMAR (15970),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
104. GROUP CAPTAIN VIDYA SAGAR BHARTI, YSM, VM (16611), FLYING (PILOT)
105. GROUP CAPTAIN TEJINDER PAL SINGH (16781), FLYING (PILOT)
106. GROUP CAPTAIN ARVINDRA SINGH BUTOLA, VM (16789), FLYING (PILOT)
107. GROUP CAPTAIN PRAVEEN BHATT (16970), FLYING (PILOT)
108. WING COMMANDER MANECHENELLORE SRINIVASAN SHANKAR (15810),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

109. WING COMMANDER KUKUNOOR UDAY KUMAR REDDY (16462), ACCOUNTS
110. WING COMMANDER MAHENDER KUMAR GULERIA (17130),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
111. WING COMMANDER NIRMAL SINGH JAMWAL, VM (17156), FLYING (PILOT)
112. WING COMMANDER AMIT TYAGI (17654),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
113. SQUADRON LEADER KANDENGALAM NELLISERI SANTOSH (20674),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
114. 635940 WARRANT OFFICER AVDHESH KUMAR SINGH, RADAR FITTER
115. 689695 SERGEANT BIRENDRA KUMAR, ELECTRICAL FITTER

BARUN MITRA
Director

No.25-Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-50573 MAJOR ANIL GORSHI, SM,
PARA/31 RASHTRIYA RIFLES (COMMANDO)
2. IC-54116 MAJOR PATHIYERI SUNIL KUMAR, SM,
MECHANISED INFANTRY/28 ASSAM RIFLES

BARUN MITRA
Director

No.26—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-38287 COLONEL BAL KRISHAN YADAV,
SIKH LIGHT INFANTRY/2 RASHTRIYA RIFLES
2. IC-42797 COLONEL ANUBIR SINGH CHAHAL, 16 MARATHA LIGHT INFANTRY
3. IC-42017 LIEUTENANT COLONEL JASWINDER SINGH, ARMY AVN/27 R&O FLT
4. IC-43820 LIEUTENANT COLONEL GOGI REDDY SRINIVASA REDDY,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/28 RASHTRIYA RIFLES
5. IC-48640 MAJOR INDERJEET SINGH, SC, 16 JAT
6. IC-49313 MAJOR AMIT SHARMA,
ARMOURED/27 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
7. IC-49896 MAJOR AMIY KUMAR TRIPATHI,
SIKH/6 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
8. IC-50206 MAJOR JASWINDER SINGH, GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
9. IC-50984 MAJOR PUNI CHAND KAUSHAL, ARTILLERY/11 ASSAM RIFLES
10. IC-51252 MAJOR ASHUTOSH KUMAR SINGH, 19 RAJPUT
11. IC-51847 MAJOR MAGIMAIRAJ PETER CELESTINE, 13 SIKH LIGHT INFANTRY
12. IC-53749 MAJOR ZAMEER AHMED KHAN, JAT/19 ASSAM RIFLES
13. IC-55852 MAJOR KSHETRIMAYUM SANTA SINGH ARTILLERY/6 ASSAM RIFLES
14. IC-56856 MAJOR OMEESH SINGH RATHORE,
ARMY SERVICE CORPS/16 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-57614 MAJOR PRADEEP KUMAR SHARMA
18 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
16. IC-57652 MAJOR AJAY PRATAP HAMIR, RAJPUT/23 RASHTRIYA RIFLES

17. IC-58591 MAJOR HARMANJEET LIDDER, 10 PARA (SPECIAL FORCES)
18. IC-58844 MAJOR SIDDHARTHA DHANKAR, MADRAS/38 RASHTRIYA RIFLES
19. IC-60259 MAJOR SAKET SUMAN, 3 SIKH
20. IC-61114 MAJOR GURPREET SINGH, 11 RAJPUTANA RIFLES
21. SS-38192 MAJOR GIRISH KUMAR VT, 19 RAJPUT
22. 21252 SQUADRON LEADER AJIT RAMANATHAN,
INDIAN AIR FORCE/153 HELICOPTER UNIT
23. IC-56113 CAPTAIN ASHISH CHATURVEDI, ARMoured/28 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-58559 CAPTAIN ANIL KUMAR SINGH RATHORE,
ARMY SERVICE CORPS/13 RASHTRIYA RIFLES
25. IC-59066 CAPTAIN MOHIT SHARMA, 1 PARA (SPECIAL FORCES)
26. IC-59340 CAPTAIN ANAND SINGH CHAUHAN,
SIKH LIGHT INFANTRY/49 RASHTRIYA RIFLES
27. IC-61655 CAPTAIN MANOJ GUJUNG, 3 RAJPUT
28. IC-61795 CAPTAIN AMIT TRIPATHI, 7 GARHWAL RIFLES
29. SS-38304 CAPTAIN RAMESH KUMAR RANWA, ARTILLERY/29 RASHTRIYA RIFLES
30. SS-38422 CAPTAIN SIDDHARTH MUKERJI, GRENADIERS/39 RASHTRIYA RIFLES
31. SS-39090 CAPTAIN DANIEL KHOLI, 5/8 GORKHA RIFLES
32. IC-62510 LIEUTENANT ROMEL BISWAS, 3 RAJPUT
33. IRLA-65849 DEPUTY COMMANDANT SWRAN DEV
BORDER SECURITY FORCE/HQ 8 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
34. JC-469124 SUBEDAR RAJENDER SINGH SHEKHAWAT, 11 RAJPUTANA RIFLES
35. JC-548619 SUBEDAR RAMENDRA SINHA, 8 ASSAM
36. JC-412856 NAIB SUBEDAR KHEM RAJ, 1 PARA(SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
37. JC-508802 NAIB SUBEDAR BHAJAN SINGH,
SIKH LIGHT INFANTRY/19 RASHTRIYA RIFLES
38. 2591392 HAVILDAR BUNENI VENKATESWARLU, MADRAS/8 RASHTRIYA RIFLES
39. 2593724 HAVILDAR ANIL KUMAR VISWAMBHARAM, MADRAS/8 RASHTRIYA RIFLES
40. 2988784 HAVILDAR BHERU SINGH, 9 RAJPUT

41. 2991097 HAVILDAR NABAB SINGH BUNDELA, 19 RAJPUT
42. 3177315 HAVILDAR VIJAY SINGH, 21 JAT
43. 3181773 HAVILDAR RAJPAL SINGH, 16 JAT
44. 4062857 HAVILDAR SOBAN SINGH, 3 GARHWAL RIFLES
45. 4467936 HAVILDAR SARDOOL SINGH, 13 SIKH LIGHT INFANTRY
46. 13617004 HAVILDAR JAGMOHAN SINGH, 10 PARA(SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
47. 13617045 HAVILDAR SATPAL SINGH, PARA/31 RASHTRIYA RIFLES(COMMANDO)
48. 13747689 HAVILDAR MAST RAM,
JAMMU & KASHMIR RIFLES/28 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
49. 13749494 HAVILDAR TARA CHAND,
4 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
50. 2481067 NAIK RAJ KUMAR, 13 PUNJAB (POSTHUMOUS)
51. 2686317 NAIK KRISHAN KUMAR, GRENADIERS/12 RASHTRIYA RIFLES
52. 2888451 NAIK JAI SINGH, RAJPUTANA RIFLES/18 RASHTRIYA RIFLE
53. 3184272 NAIK MAHAVEER PRASAD, 16 JAT
54. 4069013 NAIK OM PRAKASH, 11 GARHWAL RIFLES
55. 4073455 NAIK RAJENDRA SINGH, 16 GARHWAL RIFLES
56. 4562865 NAIK VIHIRE PRAKASH CHAMPATRAO,
MAHAR/1 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
57. 13756812 NAIK PIAR SINGH, 17 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)
58. 13758741 NAIK YOGRAJ SINGH, 1 PARA (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
59. 14428258 NAIK JAI KUMAR, ARTILLERY/7 RASHTRIYA RIFLES
60. 15124214 NAIK SURJIT SINGH, ARTILLERY/193 FIELD REGIMENT (POSTHUMOUS)
61. 2891481 LANCE NAIK DAVINDER SINGH, 11 RAJPUTANA RIFLES
62. 3396899 LANCE NAIK HARBHAJAN SINGH, SIKH/16 RASHTRIYA RIFLES
63. 4186568 LANCE NAIK KUNDAN SINGH RATHORE, KUMAON/13 RASHTRIYA RIFLES
64. 4569139 LANCE NAIK LAKHBIR SINGH, 10 PARA(SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
65. 5754107 LANCE NAIK RAM KUMAR THAPA, 5/8 GORKHA RIFLES

66. 14413414 LANCE NAİK RAM BINAY SHARMA,
AIR DEFENCE ARTILLERY/10 RASHTRIYA RIFLES
67. 15131291 LANCE NAİK ANANDHAN SUBRAMANY, ARTILLERY/41 RASHTRIYA RIFLES
68. 2482656 SEPOY PADAMJIT, 25 PUNJAB
69. 2490740 SEPOY LAKHMINDER SINGH, PUNJAB/22 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
70. 2491400 SEPOY ASHWANI KUMAR,
PUNJAB/22 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
71. 2795780 SEPOY ANIL PATIL,
MARATHA LIGHT INFANTRY/27 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
72. 3400162 SEPOY RANJIT SINGH, SIKH/16 RASHTRIYA RIFLES
73. 3401994 SEPOY RANDHEER SINGH, SIKH/16 RASHTRIYA RIFLES
74. 3404786 SEPOY SHAM SINGH, SIKH /6 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
75. 4000709 SEPOY JAI PRAKASH, DOGRA/11 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
76. 4189680 SEPOY PRAKASH SINGH, 9 KUMAON (POSTHUMOUS)
77. 4365338 SEPOY NGAWANG TENZING, 15 ASSAM (POSTHUMOUS)
78. 4366844 SEPOY DOLO JELISOW, ASSAM/35 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
79. 4367883 SEPOY H LALHMINGLIANA, ASSAM/42 RASHTRIYA RIFLES
80. 4368784 SEPOY SONAM RINCHIN, 15 ASSAM (POSTHUMOUS)
81. 4575520 SEPOY SANJAY SARKAR, 12 MAHAR (POSTHUMOUS)
82. 115189 RIFLEMAN MD ABDUL SATAR, 11 ASSAM RIFLES
83. 124390 RIFLEMAN KHUNDRAKPAM CHANDRA KUMAR SINGH, 12 ASSAM RIFLES
84. 143938 RIFLEMAN CHINGHIAMANG, 14 ASSAM RIFLES
85. 194044 RIFLEMAN KR CHAN, 19 ASSAM RIFLES
86. 193434 RIFLEMAN GINKHO LAL VAIPHEI, 19 ASSAM RIFLES
87. 2200853 RIFLEMAN KJ THOMAS, 22 ASSAM RIFLES
88. 3301003 RIFLEMAN LAL GOULEN KHOLHOU, 33 ASSAM RIFLES
89. 5047859 RIFLEMAN AMIT THAPA, 3/1 GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
90. 9101796 RIFLEMAN MOHD JAVID, PARA/31 RASHTRIYA RIFLES(COMMANDO)

91. 9102888 RIFLEMAN FAROOQ AHMED BABA,
JAMMU & KASHMIR LIGHT INFANTRY/9 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
92. 9103462 RIFLEMAN KULDEEP KUMAR,
13 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
93. 13761812 RIFLEMAN PARSHOTAM KUMAR,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/3 RASHTRIYA RIFLES
94. 13762260 RIFLEMAN SANJEEV KUMAR,
JAMMU & KASHMIR RIFLES/28 RASHTRIYA RIFLES
95. 15337016 SAPPER NIRANJAN KUMAR SINGH, ENGINEERS/3 RASHTRIYA RIFLES
96. 3193311 PARATROOPER RAJU SINGH, 10 PARA(SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
97. 13621943 PARATROOPER CHATAR SINGH, 21 PARA (SPECIAL FORCES)
98. 13624136 PARATROOPER LEITANTHEM SUDAM SINGH, 21 PARA (SPECIAL FORCES)
99. 2696373 GRENADIER DADWAL SANJEEV JASHWANT SINGH,
GRENADIERS/39 RASHTRIYA RIFLES
100. 2697208 GRENADIER NATTHU RAM, 12 GRENADIERS

BARUN MITRA
Director

No.27—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Nao Sena Medal/Navy Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. COMMANDER SATYABRATA DAM (03313-B)
2. LIEUTENANT COMMANDER ABHISHEK KANKAN, (41686-R)
3. SURGEON LIEUTENANT VIKING BHANOO, (75792-B)
4. LIEUTENANT SUMEET PABBY (05007-B)
5. RAKESH KUMAR, POMA, (153418-B)
6. VIKAS KUMAR, POMA, (122944-W)
7. RAVINDER KUMAR, SEA I CD III, (130041-Z)

BARUN MITRA
Director

No.28—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. WING COMMANDER SHASHI KANT MISHRA (19570), FLYING (PILOT)
2. SQUADRON LEADER AVANEESH KUMAR UPADHYAY (19893), FLYING (PILOT)
3. SQUADRON LEADER MANU CHAUDHARY (19896), FLYING (PILOT)
4. SQUADRON LEADER KOLAL KRISHNAMURTHY VENUGOPAL (20459)
FLYING (PILOT)
5. SQUADRON LEADER RANDHIR SINGH (22345), FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Director

No.29—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to IC-41741 Colonel Santosh Kumar Kurup, SM, Maratha Light Infantry/17 Rashtriya Rifles for the acts of exceptional devotion to duty.

BARUN MITRA
Director

No.30—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Sena Medal/Army Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. V-292 MAJOR GENERAL BIRHAM PAL SINGH PANWAR, REMOUNT AND VETERINITY CORPS
2. IC-25107 BRIGADIER MOHINDER KUMAR IDNANI, GUARDS
3. IC-25836 BRIGADIER HARINDER PAL SINGH KLAIR, GUARDS/HQ EASTERN COMMAND
4. IC-30353 BRIGADIER SYED ATA HASNAIN, VSM*, GARHWAL RIFLES/HQ 12 INFANTRY BRIGADE
5. IC-31324 BRIGADIER KOTHENETH SURENDRANATH, ARMOURED
6. IC-32482 BRIGADIER JASPAUL SINGH, VSM, INTELLIGENCE
7. IC-33015 BRIGADIER EPPEN JACOB KOCHERKAN, VSM, 5 GORKHA RIFLES/HQ 9 SECTOR ASSAM RIFLES
8. IC-35471 COLONEL BIPIN RAWAT, VSM, 11 GORKHA RIFLES
9. IC-36741 COLONEL VIJAY KUMAR, VSM, DOGRA
10. IC-37962 COLONEL AMARJIT SINGH, 33 ASSAM RIFLES
11. IC-38298 COLONEL JASVINDER SINGH CHOPRA, ARTILLERY
12. IC-39666 COLONEL HARISH CHANDRA PATHAK, 15 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
13. IC-40007 COLONEL YENDURU VENKATA KRISHANA MOHAN, 7/11 GORKHA RIFLES
14. IC-41230 COLONEL SUNIL DUTT MEHTA, JAT/45 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-41323 COLONEL SANJAY SAH, GARHWAL RIFLES/36 RASHTRIYA RIFLES
16. IC-41478 COLONEL TINAIKAR SHAILESH SADASHIV, 10 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
17. IC-41613 COLONEL SANJAY KUMAR ACHARYA, SIKH LIGHT INFANTRY/19 RASHTRIYA RIFLES
18. IC-41755 COLONEL RAJNISH SHARMA, RAJPUT/23 RASHTRIYA RIFLES

19. IC-41858 COLONEL CODANDA POOVAIAH CARIAPPA,
RAJPUTANA RIFLES/9 RASHTRIYA RIFLES
20. IC-42475 COLONEL SAVNEET SINGH, 7 GARHWAL RIFLES
21. IC-43245 COLONEL NS RAJA SUBRAMANI, 16 GARHWAL RIFLES
22. MR-03694 COLONEL TAPAN SINHA, ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
23. MR-04223 COLONEL CHANDER MOHAN, ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
24. MR-04310 COLONEL GURVINDER SINGH CHOPRA,
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
25. MR-03957 WING COMMANDER RAKESH CHANDOLA,
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL(R&R)
26. IC-43352 LIEUTENANT COLONEL NARAIN DUTT GANESH DUTT JOSHI,
INTELLIGENCE CORPS/739 INT & FS UNIT
27. IC-43671 LIEUTENANT COLONEL RISHI KUMAR CHHIKARA,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES/1 LADHAKH SCOUTS
28. IC-45310 LIEUTENANT COLONEL VIJENDER KUMAR RATHORE,
INTELLIGENCE CORPS/237 INTELLIGENCE AND FS UNIT
29. IC-48057 LIEUTENANT COLONEL BRIJESH DATTA, SIGNALS/61 WEU
30. MR-04722 LIEUTENANT COLONEL ANIL DHALL,
ARMY MEDICAL CORPS/ARMY HOSPITAL (R&R)
31. MR-04915 LIEUTENANT COLONEL TARUN KAUL,
ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTT
32. IC-46681 MAJOR ANOOP SINGH GILL, ARMY AVIATION / 21 R&O FLIGHT
33. IC-47842 MAJOR ANIL KUMAR, 110 ENGINEER REGIMENT
34. IC-52041 MAJOR SURENDER PAWAN KUMAR, ARMY AVIATION/21 R&O FLIGHT
35. IC-52687 MAJOR PRAVIR KUMAR PAL, ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/SDD
36. IC-58797 MAJOR ROHIT UNIYAL, ARTILLERY/96 FIELD REGIMENT
37. IC-54456 CAPTAIN VINAY SADASIVAN, MAHAR/HIGH ALTITUDE WARFARE SCHOOL
38. 4076760 LANCE NAIK BALWANT SINGH, 6 GARHWAL RIFLES

BARUN MITRA
Director

No.31—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "Nao Sona Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. COMMODORE NAND KUMAR JHA, VSM (02374-W)
2. COMMODORE VELUSWAMY KARUNANITHI (50572-K)
3. COMMODORE KALPATHI NARASIMHAN VAIDYANATHAN (40665-W)
4. CAPTAIN BALDEV RAJ TANEJA (50711-A)
5. COMMANDER RAKESH KUMAR MEHTA (02577-F)
6. COMMANDER G PRAKASAN (02881-Y)
7. COMMANDER MUKUL ASTHANA (03003-Z)
8. COMMANDER (TS) AJAY RANJAN SAHAY (02714-T)

BARUN MITRA
Director

No. 32—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion of duty:-

1. GROUP CAPTAIN SRIDHARA PANICKER RADHA KRISHNAN NAIR (16040), FLYING (PILOT)
2. GROUP CAPTAIN SHOUVIK ROY (16088), FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN SUNIL JAYANT NANODKAR (16555), FLYING (PILOT)
4. WING COMMANDER HEMANT NARAYAN BHAGWAT (16423),
ADMINISTRATION/PARA JUMP INSTRUCTOR
5. WING COMMANDER NAYANI HARISH (17135), FLYING (PILOT)
6. WING COMMANDER SHREEKUMAR PRABHAKARAN (17318), FLYING (PILOT)
7. WING COMMANDER S HARI KRISHNAN NAIR (17338), FLYING (PILOT)
8. WING COMMANDER SANDESH PRABHAKAR WAGLE (17710), FLYING (PILOT)
9. WING COMMANDER UMESH RAKHRA (18071), FLYING (PILOT)
10. WING COMMANDER SANJAY ANAND KUNTE (18073), FLYING (PILOT)
11. WING COMMANDER KISHORE KUMAR KHERA (18256), FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER MOHAN GUPTA (18562), FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER RAVI KHANNA (18565), FLYING (PILOT) (POSTHUMOUS)
14. 668479 JUNIOR WARRANT OFFICER SURENDRA KUMAR MOHANTY, FLIGHT GUNNER

BARUN MITRA
Director

No.33-Pres/2005 - The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for "Mention in Despatches" received by the **Raksha Mantri** from the "Chief of the Army Staff" and "Chief of the Air Staff" :-

OPERATION HIFAZAT

1. IC-41223 COL RAVINDRA SINGH RAWAT, 4/4 GR
2. IC-47111 MAJ MAHENDRA KUMAR JOSHI, 19 GARH RIF
3. IC-53854 MAJ SATYENDRA TRIPATHI, GR, 7 ASSAM RIF
4. SS-37700 MAJ CHANDRA PAL SINGH KHATI, SC, 4/4 GR
5. 172687 HAV GAJENDRA NATH DEKA, 17 ASSAM RIF

OPERATION RAKSHAK

6. 18785-S WG CDR ASHUTOSH LAL, IAF AEB, AF
7. JC-438614 SUB VENKIDACHALAM S, 28 MADRAS
8. 2983096 HAV SHYAM PAL SINGH, 17 RAJPUT
9. 4174854 HAV BHUPENDRA SINGH, 6 KUMAON
10. 13617717 HAV RAM EKBAL PRASAD SAH, 5 PARA
11. 13757625 L/NK BALVINDER SINGH, 10 JAK RIF

OPERATION PARAKRAM

12. IC-49635 MAJ KAMAL KISHOR, 25 PUNJAB
13. IC-60419 MAJ PRAMOD SINGH CHAUHAN, 12 GARH RIF
14. IC-61077 CAPT AMIT HOODA, ARTY, 32 FD REGT
15. SS-38600 CAPT SACHIN BALI, 12 MLI
16. SC-00300 CAPT SAJEEV N, 13 JAK LI
17. IC-61937 LT DIWAKAR KAPOOR, ARTY, 320 FD REGT
18. IC-62281 LT CHETAN MANHAS, AOC, 13 JAK LI
19. IC-62763 LT PRAVEEN SHARMA, INT, 13 JAK LI
20. JC-177992 SUB MAJ JAGDISH SINGH, 3 SIKH
21. JC-612312 SUB RAM LAXMAN THAPA, 4 GR, 15 RR

22. JC-449385 NB SUB KARNAIL SINGH RANA, GDRS, 29 RR
23. JC-529225 NB SUB BHAGAT SINGH, GARH RIF, 36 RR
24. 3387242 HAV SUKHWINDER SINGH, 5 SIKH
25. 4067147 HAV GOPAL CHANDRA, 7 GARH RIF
26. 4359259 HAV PAULEMTHANG, 8 ASSAM
27. 4552051 HAV BAISAKHU, 4 MAHAR
28. 3183320 L/HAV MUKESH KUMAR, 21 JAT
29. 4194734 SEP ANAND BALLABH DUBEY, KUMAON, 50 RR
30. 4076120 RFN BIRENDRA SINGH, 12 GARH RIF
31. 4082645 RFN DINESH PRASAD, 7 GARH RIF
32. 9104693 RFN MOHD AKRAM, 13 JAK LI
33. 9107619 RFN BHARAT BHUSHAN, 13 JAK LI
34. 13625091 PTR MAHESH KUMAR, 10 PARA (SF)

OPERATION RHINO

35. IC-50469 MAJ ANIL RAMAN, 5/8 GR
36. IC-56940 MAJ LOKESH KANDPAL, 5/8 GR
37. RC-987 MAJ ARVIND KUMAR THAPA, 5/8 GR
38. IC-60244 CAPT VIVEK REHNI, ASC, 17 PUNJAB
39. JC-539045 NB SUB HARI KRISHAN PANDEY, 8 KUMAON
40. 2889380 NK RAJ KUMAR, 7 RAJ RIF
41. 4364634 SEP V ZODINTHARA, 10 ASSAM
42. 5755779 RFN YAM BAHADUR GURUNG, 5/8 GR

INDIAN AVIATION CONTINGENT, UN OPERATION, CONGO (AIR FORCE)

43. SQUADRON LEADER DEEPAK CHANDRA PANDEY (19223)
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
44. SQUADRON LEADER SUSHANT DUTTA (19243), LOGISTICS
45. SQUADRON LEADER MANISH SINGH (20995), FLYING (PILOT)
46. 657360 WARRANT OFFICER OM PAL TOMAR, AIR FRAME FITTER
47. 679448 SERGEANT PIYUSH MOHAN JANGID, AIR FIELD SAFETY OPERATOR
48. 728234 SERGEANT RADHA RAMAN MISHRA, FLIGHT ENGINEER
49. 820921 NON COMBATANT (ENROLLED) RABINDRA NATH MAITY, SAFAI WALA

BARUN MITRA
Director

No.34—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "Kirti Chakra" to the undermentioned personnel for the acts of conspicuous gallantry:-

1. WING COMMANDER SUDHIR KUMAR SHARMA (17717)
FLYING (PILOT)

(Effective date of the award : 11 May 2004)

Wing Commander Sudhir Kumar Sharma, Flying (Pilot) is commanding a Helicopter Unit since 05 August 2002.

On 11 May 2004, Wing Commander Sharma was directed to urgently evacuate three members of a mountaineering expedition to Mt Kamet, who were critically injured due to inclement weather. These casualties were at an altitude of 23,260 ft, which is beyond the service ceiling of 23,000 ft of Cheetah helicopter. Due to their serious injuries, it was impossible to bring them down. Wing Commander Sharma flew in his Cheetah helicopter to the site and on locating the survivors realised that the only option was to land on an unprepared small tabletop sloping area located on an exposed snow covered ridge. Such landing demanded extraordinary courage and exceptional flying skills. Even a slight mishandling of helicopter controls could lead to a catastrophic accident endangering the life of the pilot.

No one in the world had ever attempted landing a helicopter at such a high altitude let alone evacuate casualties from an unprepared, snow bound and sloping piece of ground. Despite the deterring and trying conditions, deteriorating weather, severe turbulence, gusty jet stream winds exceeding 120 kmph and low margin of power available, Wing Commander Sharma, displaying resolute determination, utmost courage and an utter disregard for his personal safety, landed at the site not once but three times to evacuate the casualties. His courageous act under these near impossible conditions was instrumental in saving the lives of three mountaineers from certain death. This rescue from an

altitude of 23,260 ft is the highest ever landing and casualty evacuation by any helicopter and in the process set a world record which has been recognised by Limca Book of world records.

Wing Commander Sudhir Kumar Sharma displayed conspicuous bravery in face of impossible odds, exceptional courage and rescued the mountaineers.

2.

IC-61381 CAPTAIN SAJJAN SINGH MALIK
10 PARA(SF) (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award : 08 July 2004)

Ambushes in a village adjacent to a thick forest in district Baramulla, Jammu & Kashmir, were positioned on 08 July 2004 to intercept terrorist movement. Captain Sajjan Singh Malik and his detachment of three commandos were behind a low stonewall in the village overlooking paths leading to the forest. At 0340 hours, sound of foot-steps of few persons moving on the path to the forest was followed. On being challenged, they fired and ran for cover. Captain Malik engaged them commencing a firefight in near darkness and killed one terrorist.

Bleeding from splinter injuries, he changed position under hostile fire from three directions encouraging and directing his comrades. Two civilians caught in cross fire were huddled against a wall. Negotiating a fence, as bullets rained around him, he drew hostile fire onto himself facilitating their escape. He was hit again in the leg. Refusing treatment, instructing his comrades to cover his move, he lobbed a grenade and closed in to kill two terrorists, before succumbing to his injuries.

Captain Sajjan Singh Malik displayed conspicuous bravery, exemplary courage, leadership in facing the terrorists and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army.

BARUN MITRA
Director

No.35—Pres/2005 - The President is pleased to approve the award of the "**Shaurya Chakra**" to the undermentioned persons for the acts of gallantry:-

1.

SHRI VISHNU SINGH SHEKHAWAT
CONSTABLE, 52 BN, BSF (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award : 05 May 2003)

On the basis of an information about presence of terrorists in the area, on 05 May 2003, BSF troops launched a search and cordon operation at Village T Sund of district Anantnag in Jammu & Kashmir. The target house was cordoned off at 0600 hours. On noticing the troops, the terrorists started firing heavily. Constable Vishnu Singh Shekhawat and another constable volunteered to enter the target house to take on the terrorists. Constable Shekhawat crawled close to the house while the other constable engaged the terrorists in firing. On reaching the house, Constable Shekhawat kicked open the door and started firing at the terrorists. However, in the process, he received severe bullet injuries. Without caring for his injuries, he continued firing and killed one of the terrorists on the spot before he fell down unconscious. Constable Shekhawat succumbed to his injuries later. The other terrorists hiding in the house were killed by the police personnel subsequently.

Constable Vishnu Singh Shekhawat displayed conspicuous gallant action, raw courage and made the supreme sacrifice in fighting with the terrorists.

2.

SHRI CHHOTE LAL
HEAD CONSTABLE, 93 BN, CRPF

(Effective date of the award : 10 July 2003)

On the basis of specific information about the presence of terrorists, on 10 July 2003 at about 1000 hours, a section of platoon of CRPF went to Khayarabari village in Assam to search the area. One of the constables noticed two bicycles covered with mud parked near huts. He, followed by Head Constable Chhote Lal moved towards the huts to search for the terrorists. The ULFA terrorists hiding in the huts started firing at them. The constable following Shri Chhote Lal received bullet injury in the right hand. Head Constable Chhote Lal immediately took the injured constable to a safe place and started firing at the terrorists from his carbine. A terrorist got injured and took out a hand-grenade to throw at the troops. Noticing this, Head Constable Chhote Lal immediately rushed and caught hold of the hand of the terrorist and a scuffle ensued. The terrorist fell down on the ground and Head Constable Chhote Lal was above him. Just then the hand-grenade exploded in the hands of the terrorist killing him instantaneously while Head Constable Chhote Lal received severe injuries to his hands and leg. The terrorist was later identified as an area commander of ULFA. Thus, Head Constable Chhote Lal with his gallant action not only saved the life of his colleague but also killed a dreaded terrorist.

Head Constable Chhote Lal displayed conspicuous gallantry, raw courage and aggressive spirit in fighting the terrorists.

3.

JC-3300020 SUBEDAR KEHAR SINGH
33 ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award : 11 July 2003)

On 10 July 2003, presence of some terrorists in Chandel district in the Eastern Sector, who were holding two hostages for

ransom, was informed. An operation was planned and Subedar Kehar Singh volunteered to lead the Ghatak Platoon for search of the suspected house.

The troops undertaking a long and difficult route through thick jungle in pitch dark night and continuous rain managed to reach target area without loss of surprise. The outer cordon was put in place by 0230 hours on 11 July 2003. Subedar Kehar Singh alongwith Ghatak platoon managed to sneak through the jungle and reach close to the suspected house alongwith spotter and six Ghataks. They observed a sentry. While adjusting their positions, the JCO slipped which alerted the sentry who fired immediately. Realising that surprise was lost and sensing danger to his party, Subedar Kehar Singh wasted no time and charged on to the underground position. In a volley of burst fire from undergrounds, Subedar Kehar Singh sustained bullet injury in his jaw. Despite being critically wounded, he along with his buddy broke into the house and shot one underground. He collapsed inside the house immediately thereafter.

Subedar Kehar Singh displayed stoic courage, determination, extreme loyalty and comradeship while saving lives of his comrades and made the supreme sacrifice in fighting the terrorists.

4. **SHRI AMARDEEP SINGH, AMRITSAR, PUNJAB**

(Effective date of the award : 05 September 2003)

Shri Amardeep Singh, a businessman of Amritsar, who was on business tour at Patna, took a rickshaw at 7.45 PM on 5.9.2003 from Bakargang market to go to Patna Station. Suddenly, four dacoits on motor-bikes and armed with revolvers, surrounded him and attempted to rob him of his belongings at gun point. One of the dacoits shot two bullets at Shri Singh, which hit him in his right arm. For a moment, injured Shri Singh offered

his belongings to one of the dacoits. When the dacoits' attention was diverted towards the belongings, Shri Singh immediately took out his licensed pistol and shot twice at the snatcher. The bullets hit the snatcher in his head and chest due to which he fell down instantly. Another dacoit tried to move towards him. Shri Singh shot at him hitting him in the temple. He took aim at the third person and shot him in his leg. The fourth dacoit ran away. Shri Singh was bleeding due to the bullet injuries. He requested the people over there to take him to the hospital but nobody came forward. He walked 2 kms to a nearby hospital and was operated upon in the hospital and bullets were removed from his right arm. His courageous action was appreciated by the local police authorities, media and politicians.

Shri Amardeep Singh, thus, showed presence of mind, exemplary initiative and confronted the dacoits with unparalleled courage and bravery. He was not only able to save his life and belongings from the dacoits but also helped the people by eliminating the bad elements from society.

5.

IC-59140 MAJOR SAMRAT MAITI
1 NAGA (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award : **23 February 2004**)

On receipt of specific information about presence of terrorists in West Garo Hills in Eastern Sector on 23 February 2004, Major Samrat Maiti alongwith 21 OR launched a search mission.

At 2100 hours, when his party was approaching a village in Tura district (Meghalaya), the party drew heavy volume of accurate fire from terrorists in which Major Samrat Maiti sustained bullet injuries. Unmindful of his personal safety and duty beyond conviction, Major Samrat Maiti immediately returned fire and

exchange of fire ensued. The terrorists holed inside a hut hurled grenades at him and directed automatic fire, showing nerves of steel, Major Samrat Maiti reorganised his men and moving from the flank forced the terrorists to abandon their hideout. Due to the bullet injuries Major Samrat Maiti breathed his last at 2230 hours and made supreme sacrifice for the Motherland.

On search of the area, a cache of IED (Improvised Explosive Device) material and explosives was recovered. The action by Major Samrat Maiti therefore resulted in not only forcing the terrorists to abandon a hideout but also averting a major disaster by foiling their plans to plant an IED.

Major Samrat Maiti displayed dauntless courage, aggressive spirit, exceptional dynamism and bold leadership before making the supreme sacrifice in the finest traditions of Indian Army.

6.

IC-46327 MAJOR MAHARAJ KRISHEN BHAT
ARTILLERY/45 RASHTRIYA RIFLES

(Effective date of the award : 27 February 2004)

Acting on specific intelligence, on 27 February 2004, spearheading Battalion operations in a Nala near a village in district Poonch, Jammu and Kashmir after gruelling cross country movement, Major Bhat skilfully deployed his columns. On being confronted by terrorists, the officers rushed ahead, displaying raw courage and sharp reflex, killed two terrorists with his blazing assault rifle. Amidst heavy exchange of fire, other terrorists scurried for cover. Despite chilling night, with utmost patience, to prevent own casualties, Major Bhat redeployed columns in tight cordon and laid in waiting followed by deliberate search next morning. His buddy spotted two more terrorists of which one was eliminated by him. Fourth hiding terrorist continued

firing effectively. Major Bhat displayed conspicuous bravery and commendable mental agility by leading upfront in face of grave mortal danger, outflanked him from rear and shot him dead. In all four terrorists were killed and one PIKA gun captured.

Major Maharaj Krishen Bhat, thus, displayed unparalleled courage and valour in fighting the terrorists.

7.

2688156 LANCE NAIK PAPPU RAM
GRENADIERS/29 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

(Effective date of the award : 17 April 2004)

On 17 April 2004 Lance Naik Pappu Ram was on an intelligence collection mission in a village in Jammu and Kashmir as part of Quick Action Team. The team spotted three suspicious looking persons getting away at quick pace on seeing them. The team gave chase and launched house to house search.

As Lance Naik Pappu Ram and his officer were entering a cowshed, they were fired at heavily by terrorists from inside. Though injured grievously, Lance Naik Pappu Ram charged in and killed one terrorist, who was later identified as divisional commander Pattan, Baramulla and Sopur. Then the second terrorist fired at Lance Naik Pappu Ram injuring him mortally. Lance Naik Pappu Ram continued the charge. The terrorist got into a hideout and continued firing. Lance Naik Pappu Ram, though bleeding profusely, crawled upto the entrance, lobbed grenade and fired into the hideout killing him before attaining martyrdom on the spot. Lance Naik Pappu Ram's bold action motivated the team to kill a third terrorist. Substantial weapons, ammunition, mobile phone and other warlike stores were recovered.

Lance Naik Pappu Ram displayed indomitable spirit, conspicuous bravery and made the supreme sacrifice while killing two terrorists single-handedly.

8.

IC-58799 CAPTAIN RAJENDRA SINGH KADWASARA
ARTILLERY/41 RASHTRIYA RIFLES

(Effective date of the award : 12 June 2004)

Captain Rajendra Kadwasara was leading the six men team tasked to intercept reported escape of terrorists from general area in Kupwara district in Jammu and Kashmir. The team was deployed at the passage to block the movement.

At around 0520 hours, own team observed approach of five terrorists. Displaying exemplary presence of mind, the team allowed the terrorists to close in and, at an opportune moment, opened fire. Terrorists, taking advantage of dense foliage, retaliated with AK and UBGL fire. In the process, one Sepoy sustained gunshot wound. Unmindful of this setback, the officer, while instructing other members to administer first aid, picked up the LMG and rushed out to engage the terrorists. Showing tremendous grit and determination, the officer alongwith his buddy closed in from a flank and, in the ensuing firefight, single-handedly killed two terrorists. Meanwhile, another terrorist opened up at close range. Captain Kadwasara, re-deployed his buddy for covering fire, and again charged out to kill the third terrorist. This bold action led to timely evacuation of own casualty, killing of four terrorists, of which Captain Kadwasara himself killed three, and recovery of arms and ammunition.

Captain Rajendra Singh Kadwasara, thus, displayed exceptional gallantry and raw courage in close combat while fighting the terrorists.

BARUN MITRA
Director

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2005

सं० फा० 4(1)/2004-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के विघटन पर, भारत सरकार एतद्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :-

(1) गठन

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य होंगे :-

सरकारी सदस्य

अध्यक्ष

1. संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री
उपाध्यक्ष
2. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री
- सदस्य
3. रक्षा तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री
4. ग्रामीण विकास तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री

गैर-सरकारी सदस्य

(क) संसद-सदस्य

लोक सभा से दो सदस्य

सदस्य

5. श्री संदीप दीक्षित,
संसद सदस्य (लोक सभा)
6. प्रो० रासा सिंह रावत,
संसद सदस्य (लोक सभा)

राज्य सभा से दो सदस्य

सदस्य

7. प्रो० अल्का बलराम क्षत्रिय,
संसद सदस्य (राज्य सभा)
8. श्रीमती सुमित्रा महाजन,
संसद सदस्य (राज्य सभा)

(ख) संसदीय-राजभाषा-समिति द्वारा नामित दो संसद सदस्य

सदस्य

9. श्री सुब्रत बोस,
संसद सदस्य (लोक सभा)
10. श्री मनोज कुमार,
संसद सदस्य (लोक सभा)

(ग) अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य

11. श्री विभूति मिश्र,
प्रधान मंत्री,
हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग,
12 सम्मेलन मार्ग,
इलाहाबाद।

(घ) मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य सदस्य

12. प्रो० नित्यानन्द तिवारी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर,
सी-1, न्यू मुल्तान नगर,
रोहतक रोड,
नई दिल्ली।
13. डॉ० आर० के० ग्रीतम,
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।
14. डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र,
रीडर (सेवानिवृत्त),
राम लाल आनन्द कलिज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
ए-1/341, जनकपुरी,
नई दिल्ली-58
15. श्री उमाकान्त मिश्रा,
पूर्व सांसद (मिर्जापुर),
इमरती रोड,
गांव व डाकखाना वारउंधा,
मिर्जापुर,
उत्तर प्रदेश

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय-हिन्दी-परिषद् के प्रतिनिधि सदस्य

16. प्रतिनिधि,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्,
एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-23

(च) गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य सदस्य

17. श्री घनशंकरपति त्रिपाठी,
39 (जा एफ),
अराधना एन्क्लेव,
आर० के० पुरम,
सेक्टर XIII, नई दिल्ली-110066

18. प्रो० वी० एन० फिलिप
वाडाक्केपारमपिल,
रेलवे स्टेशन के नजदीक,
तिरुवल्ला, केरल-689101

19. डॉ० नागनाथ कुरुं संग्राम,
अध्यक्ष, गिदनगर (तुर्तमिल के पास)
लातूर - 413531 (महाराष्ट्र)

अन्य सरकारी सदस्य

सदस्य

20. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

21/ सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार
के हिन्दी सलाहकार

22. संयुक्त सचिव/निदेशक, राजभाषा विभाग

सदस्य-सचिव

23. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

24. उप सचिव (हि०), संसदीय कार्य मंत्रालय

25. उप सचिव (अ०स०) संसदीय कार्य मंत्रालय

26. उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय

(2) कार्य क्षेत्र

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

(3) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा बशर्ते कि :—

- (क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिसके कारण वह समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसी स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

(4) सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा।

(5) यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा०भा० (क-2) में निर्हित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण को जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

पी० गोपालाकृष्णन, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 मार्च 2005

संकल्प

सं० ई-11018/1/2004-रा०भा०—भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, उनके कार्य आदि इस प्रकार होंगे :—

1. गठन

अध्यक्ष

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित (4 संसद सदस्य)

सदस्य

1. श्री डी० विठ्ठल राव (लोक सभा)

2. श्री हरिहर स्वैन (लोक सभा)

- सदस्य
3. श्रीमती प्रेमा करियप्पा (राज्य सभा)
 4. श्री घनश्याम चन्द्र खरवार (राज्य सभा)
- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित (2 संसद सदस्य)
- सदस्य
5. श्री मानवेन्द्र सिंह (लोक सभा)
 6. श्री चन्द्र कुमार (लोक सभा)
- केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा नामित (1 सदस्य)
- सदस्य
7. श्री भगवान दास पट्टेय्या
- राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित (1 सदस्य)
- सदस्य
8. प्रोफेसर अनन्त राम त्रिपाठी
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित (4 सदस्य)
- सदस्य
9. डॉ० यतीश अग्रवाल
 10. श्री ब्रिज भूषण खंडेलवाल
 11. श्री वेद प्रकाश रावत
 12. श्री दर्शन सिंह जग्गी
- राजभाषा विभाग द्वारा नामित (3 सदस्य)
- सदस्य
13. श्री कन्हैया पंडित
 14. श्री जी० गोपीनाथन
 15. प्रोफेसर गोपाल राय
- सदस्य
- सदस्य
16. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
 17. सचिव, राजभाषा विभाग
 18. सचिव, महासागर विकास विभाग
 19. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 20. सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं महा निदेशक, सी० एस० आई० आर०
 21. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
 22. वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
 23. वित्तीय सलाहकार, महासागर विकास विभाग
 24. भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून
 25. महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली

- सदस्य
26. निदेशक, राष्ट्रीय एटमस तथा विद्युत्क मानचित्रण संगठन, कोलकाता
 27. प्रबंध निदेशक, नेशनल रिजर्व डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली
 28. प्रबंध निदेशक, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद
 29. निदेशक, आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे
 30. निदेशक, बोस विज्ञान मंदिर, कोलकाता
 31. निदेशक, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, बंगलौर
 32. निदेशक, ए० आर० सी० आई०, हैदराबाद
 33. निदेशक, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्वेदिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम
 34. बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ
 35. निदेशक, भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, मुम्बई
- सदस्य-सचिव
36. संयुक्त सचिव (प्रशा०) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

II. समिति के कार्य

समिति का कार्य संबंधित विभागों को संविधान में राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियम के उद्देश्यों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के मामले में सलाह देना होगा।

III. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अद्योत, तोड़-फाड़ का होगा —

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ख) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आवे वाले व्यक्ति से भरा जाएगा और ऐसा व्यक्ति समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

(ग) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर कर सकती है।

V. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/20034/4/86-रा० भा० (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य-मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारों के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजीव नायर, संयुक्त सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2005

संकल्प

स० ई-11015/9/2003-हिन्दी—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15-3-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20015/45/87 रा० भा० (क-2) के अनुसरण में भारत सरकार ने लघु उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति का कार्यकाल, गठन तथा कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

अध्यक्ष

1. मंत्री

लघु उद्योग मंत्रालय

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

सदस्य

2. श्री उदय प्रताप सिंह,

संसद सदस्य (राज्य सभा)

12 ए, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड,

नई दिल्ली

स्थायी पता :

302, राजेन्द्र पथ,

जिकोहाबाद, (उत्तर प्रदेश)

सदस्य

3. श्री महेश्वर प्रताप निषाद,
संसद सदस्य (लोक सभा),
40, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
स्थायी पता :
ग्राम एवं पोस्ट : गडरिया,
जिला : बांदा (उ० प्र०)

संसद सदस्य

सदस्य

4. श्री के० विरुपक्षप्पा,
संसद सदस्य (लोक सभा),
32-39, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली
स्थायी पता : गांव-सिन्धनूर
पो० सुकलपेट, जिला : रायचूर, कर्नाटक
5. श्री सुकदेव पासवन,
संसद सदस्य (लोक सभा),
96, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
स्थायी पता : गांव राजगंज,
पो० आ० नरातगंज,
जिला : अर्राँरिया, बिहार
6. प्रो० एम० एम० अप्रवाल,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
21, श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-54
स्थायी पता : 16/71, सिविल लाइन्स
कानपुर, उत्तर प्रदेश
7. श्री संजय राउत,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
12-ए, मोता बाग, नई दिल्ली
स्थायी पता : "भैत्रो" फेन्ड कालोनी,
भान्डुप, (पूर्व) मुम्बई-400042

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

सदस्य

8. डॉ० हरिश्चन्द्र वर्मा
55, सेक्टर-1, हुड्डा,
रोहतक-124001 (हरियाणा)
9. डॉ० नजीर मोहम्मद,
राहतकदा, डिगगो रोड (निकट अब्दुल्ला गर्ल्स कालिज),
अलीगढ़-202 001
10. डॉ० कनूभाई गोविन्दजी पावानी
79, गुरुनगर, वराछा रोड,
सूरत, गुजरात

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

11. श्री रमेशचन्द्र जोशी,
केन्द्रीय सचिवालय,
हिन्दी परिषद, एक्स वार्ड-68,
सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-23
सेक्टर-3, पाकेट-16,
प्लॉट नं० 148, डारका,
दिल्ली-110045
12. डॉ० पदमाकर पाण्डेय,
प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा,
ए-16, अरुणा आसफ अली मार्ग,
नई दिल्ली-110067
नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

अन्य गैर-सरकारी सदस्य (हिन्दी के विद्वान)

सदस्य

13. श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी,
ग्राम-रुद्रपुर, पत्रालय खजनी,
जिला : गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
त्रिपाठी सदन, डी-202, सुलान्त लोक,
फेज-1, गुड़गांव (हरियाणा)
14. श्री पुरुषोत्तम लाल,
पूर्व विधायक,
90, तेलीयर गंज,
इलाहाबाद-4 (उत्तर प्रदेश)
15. प्रो० (डा०) नगेंद्र नाथ तिवारी,
मातृछाया-भवानीपुर जीरात,
मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण (बिहार)
16. डा० एल० सी० गुप्ता,
मकान नं० ई-43,
यूनिवर्सिटी कैम्पस,
कुरुक्षेत्र-136119

अधिकारीगण (राजभाषा विभाग)

सदस्य

17. सचिव (राजभाषा विभाग)
18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

अधिकारीगण (लघु उद्योग मंत्रालय)

सदस्य

19. सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय
20. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
लघु उद्योग मंत्रालय
21. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग),
निर्माण भवन,
नई दिल्ली

सदस्य

22. अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०,
ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली-110020

सदस्य-सचिव

23. संयुक्त सचिव (लघु उद्योग मंत्रालय)

2. कार्य

इस समिति का कार्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रभाषी से संबंधित मामलों में मंत्रालय को सहाय्य देना होगा।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित वर्षों के अधीन तीन वर्ष का होगा :—

(क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।

4. विविध

समिति का प्रधान कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं० II/20034/4/86-रा०भा० (क-2) में निहित विमानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश-

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय समिति के सभी सदस्यों, और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

स्वति कर्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 28th March, 2005

RESOLUTION

No. F. 4(1)/2004-Hindi—On dissolution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs Government of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs as under :-

(1) Composition

The following will be the Official and Non-Official Members of the Committee :-

Official Members

Chairman

1. Minister of Parliamentary Affairs and Urban Development
Vice-Chairman
2. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions and Parliamentary Affairs
Member
3. Minister of State for Defence and Parliamentary Affairs
4. Minister of State for Rural Development and Parliamentary Affairs

Non-Official Members

(a) Members of Parliament
Two Members from Lok Sabha

Member

5. Shri Sandeep Dikshit,
Member of Parliament (Lok Sabha)
6. Prof. Rasa Singh Rawat,
Member of Parliament (Lok Sabha)

Two Members from Rajya Sabha

Member

7. Prof. Alka Balram Kshatriya,
Member of Parliament (Rajya Sabha)
8. Smt. Sumitra Mahajan,
Member of Parliament (Rajya Sabha)

(b) Two Members of Parliament Nominated by Parliamentary Committee on Official Language.

Member

9. Shri Subrata Bose,
Member of Parliament (Lok Sabha)

10. Sh. Manoj Kumar,
Member of Parliament (Lok Sabha)
(c) Representative of All India Hindi Institutions
Member

11. Sh. Vibhuti Misra,
Pardhan Mantri,
Hindi Sahitya Sammelan
Prayag,
12, Sammelan Marg,
Allahabad

(d) Members Nominated by the Ministry
Member

12. Prof. Nityanand Tiwari
Retired Professor,
C-1, New Multan Nagar,
Rohtak Road,
New Delhi.

13. Dr. R. K. Gautam,
Professor and Head of the Department
Hindi Department,
Delhi University,
Delhi

14. Dr. Ramesh Chander Misra,
Reader (Retired)
Ram Lal Anand College,
Delhi University,
Delhi.
A-1/341, Janak Puri,
New Delhi-58

15. Sh. Uma Kant Mishra,
Ex-Member of Parliament (Mirzapur)
Imarti Road,
Village & Post Office Baraundha
Mirzapur (Uttar Pradesh)

(e) Representative of Kendriya Sachivalaya
Hindi Parishad

Member

16. Representative,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar,
New Delhi-23

(f) Members Nominated by Ministry of
Home Affairs

Member

17. Sh. Dhuanjaypati Tripathi,
39 (G.F.),
Aradhana Enclave,
R. K. Puram,
Sector-XIII, New Delhi-110066

18. Prof. V. N. Philip,
Vadkkeparampil,
Near Railway Station,
Tiruvalla, Kerala-689101.
19. Dr. Nagnath Kunte Sangram,
Akshay, Shiv Nagar,
(Near Su'mil),
Latur-413531 (Maharashtra)
- Other Official Members
Member
20. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs
21. Secretary, Department of Official Language
and Hindi Advisor to the Government of
India
22. Joint Secretary/Director, Department of
Official Language
Member-Secretary
23. Joint Secretary,
Ministry of Parliamentary Affairs
24. Deputy Secretary (Leg.)
Ministry of Parliamentary Affairs
25. Deputy Secretary (R & C)
Ministry of Parliamentary Affairs
26. Deputy Secretary (Admn.)
Ministry of Parliamentary Affairs

(2) Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi in Official use in the Ministry of Parliamentary Affairs and Implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) from time to time.

(3) Tenure of Office

Tenure of Office of the Samiti will be for a period of three years from the date of its composition, provided that :-

- Any Member who is Member of Parliament as soon as he ceases to be a Member of Parliament, will also cease to be a Member of this Samiti.
- Ex-Officio members of the Samiti will continue to be Members till they hold the post, by virtue of which they are Members of the Samiti.
- If any vacancy is caused on the Samiti due to resignation or death etc. of any Member, the Member appointed in his place, will be Member of the Samiti for residual term.

(4) General

Head Office of the Samiti will be in New Delhi.

(5) T.A. and Other Allowances :-

T.A. and D.A. will be paid to the non-official members for attending the meetings of the Committee according to the scheduled rates and Rules as laid down in the Office Memorandum No. 11/20034/4/86-O.L.(A-2) dated 22 January, 1987, and as amended by the Government of India from time to time.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

P. GOPALAKRISHNAN
Joint Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th March 2005

RESOLUTION

No.E-11018/1/2004-O.L.—The Government of India have decided to constitute the Joint Hindi Advisory Committee for the Ministry of Science and Technology and the department of Ocean Development. The Composition of the Committee, its functions, will be as under :-

I Composition

Chairman
Minister of State for Science and Technology
and Ocean Development (Independent Charge)

Non official members

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs (4 members)

Member

- Shri D. Vitthal Rao (Lok Sabha)
- Shri Harihar Swain (Lok Sabha)

3. Smt. Prema Kariappa (Rajya Sabha)
4. Shri Ghanshyam Chandra Kharwar (Rajya Sabha)

Members of Parliament nominated by the Parliamentary Committee on official Language (2 membes)

Member

5. Shri Manvendra Singh (Lok Sabha)
6. Shri Chandra Kumar (Lok Sabha)

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad (1 member)

7. Shri Bhagwan Das Patairiya

Nominated by Rastra Bhasa Prachar Samiti, wardha (1 Member)

Member

8. Professor Anant Ram Tripathi

Nominated by the Ministry of Science & Technology (4 Members)

Member

9. Dr. Yatish Aggrawal
10. Shri Brij Bhushan Khandelwal
11. Shri Ved Prakash Rawat
12. Shri Darshan Singh Jaggi

Nominated by the Departmet of Official Language (3 Members)

Members

13. Shri Kanahaiya Pandit
14. Shri G. Gopinathan
15. Professor Gopal Rai

Official Members

Member

16. Secretary, Department of Science & Technology
17. Secretary, Deptt. of Official Language
18. Secretary, Deptt. of Ocean Development
19. Secretary, Deptt. of Biotechnology
20. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research and Director General, CSIR
21. Joint Secretary, Deptt. of Official Language
22. Financial Advisor, Deptt. of Science & Technology
23. Financial Advisor, Deptt. of Ocean Development
24. Surveyor General of India. Survey of India, Dehradun

25. Director General, India Meteorology Deptt. New Delhi
 26. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata
 27. Managing Director, National Research Development Corporation, New Delhi
 28. Managing Director, Central Electronics Ltd. Sahibabad
 29. Director, Agharkar Research Institute, Pune
 30. Director, Bose Institute, Kolkata
 31. Director, Indian Institute of Astrophysics Bangalore
 32. Director, A.R.C.I. Hyderabad
 33. Director, Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences & Technology, Thiruvananthapuram.
 34. Director, Birbal Sahni Institute of Paleobotany, Lucknow
 35. Director, Indian Institute of Geo—magnetism Mumbai
- Member-Secretary**
36. Joint Secretary (Admn.), Deptt. of Science & Technology

II. FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of the Committee will be to advise the Concerned departments in matters relating to the provisions of official Language enshrined in the Constitution, decisions of Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the progressive use of Hindi in Official work.

III. TENURE

The tenure of members of the committee will ordinarily be three years from the date of it's Composition, provided that :-

- (A) A member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament,
- (B) Any mid—term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.
- (C) In special circumstances the tenure of the Committee may be prolonged/Cut short by the department of Science and Technology.

IV. GENERAL

The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other place also, if so required.

V. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members of the Committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in O.M. No. 11/20034/4/86-OL(A.2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all State Governments, and U.T. Administrations, P.M. Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission, All Ministries and Departments of the Government of India. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANJIV NAIR
Jt. Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 18th March 2005

RESOLUTION

No. E. 11015/9/2003-Hindi—The Government of India has decided to re-constitute Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Small Scale Industries in pursuance of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs O. M. No. II/20015/45/87-O.L. (A-2) dated 15-3-1988. The tenure of the Samiti, its function and composition etc. is given as hereunder :—

Chairman

1. Minister,
Ministry of Small Scale Industries

Members of the Committee of Parliament on Official Language

Members

2. Shri Udai Pratap Singh,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
12, Gurudwara Rakab Ganj Road, New Delhi.
Permanent Address : 302, Rajendra Path,
Shikohabad (Uttar Pradesh).

3. Shri Mahendra Prasad Nishad,
Member of Parliament (Lok Sabha),
40, North Avenue, New Delhi.
Permanent Address: Village & Post-Gadaria,
Distt.-Banda (Uttar Pradesh).

Members of Parliament

Members

4. Shri K. Virupakshappa,
M.P. (Lok Sabha),
32-39, South Avenue, New Delhi,
Permanent Address : Vill.-Sindhanur
P.O. Sukalpet, Distt.-Raichur, Karnataka.
5. Shri Sukdeo Paswan,
Member of Parliament (Lok Sabha),
96, North Avenue, New Delhi.
Permanent Address : Vill.-Rajganj,
P.O. Narpatganj,
Distt. Araria, Bihar.
6. Prof. M.M. Agrawal,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
21, Shri Ram Road, Civil Lines, Delhi-54.
Permanent Address : 16/71, Civil Lines,
Kanpur, Uttar Pradesh.
7. Shri Sanjay Raut,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
12-A, Meena Bagh, New Delhi.
Permanent Address: "Maitri" Friends Colony,
Bhandup (E), Mumbai-400042.

Non-Official Members nominated by Department of Official Language

Members

8. Dr. Harishchandra Verma
56, Sector-1, Hudda
Rohtak-124001 (Haryana),
9. Dr. Nazeer Mohammad,
Rahatkada, Diggi Road,
(Near Abdullah Girls College)
Aligarh-202001.
10. Dr. Kanubhai Govindji Mayani,
79, Gurnagar, Varachha Road,
Surat, Gujarat

Members nominated by Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh.

Members

11. Shri Ramesh Chandra Joshi,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
XY-68, Sarojini Nagar,
New Delhi-110023.
Sector-3, Pocket-16,
Flat No. 148, Dwarka,
New Delhi-110045

12. Dr. Padmakar Pandey,
Pradhan Mantri, Nagri Pracharini Sabha,
A-16, Asaf Ali Marg,
New Delhi-110067.
Nagri Pracharini Sabha,
Varanasi (Uttar Pradesh).

Other Non-Official Members (Expert in Hindi Language)

Members

13. Shri Sudhakar Prasad Ram Tiwari,
Vill.-Rudrapur,
Post Office-Khajani,
Distt. Gorakhpur, (Uttar Pradesh).
Tripath, Sadan, D-202, Sushant Lok, Phase-I,
Gurgaon (Haryana).
14. Shri Purushottam Lal,
Ex-MLA,
90, Teliyar Ganj,
Allahabad-4 (Uttar Pradesh).
15. Prof. (Dr.) Nagendra Nath Tiwari,
P.O. Bhawanipur Jirat,
Motihari, East Champaran, (Bihar).
16. Dr. L. C. Gupta,
House No. E-43, University Campus,
Kurukshetra-136119.

Official of Department of Official Language

Members

17. Secretary, Deptt. of Official Language.
18. Joint Secretary,
Department of Official Language

Officials of Ministry of Small Scale Industries

Members.

19. Secretary, Ministry of Small Scale Industries
20. Additional Secretary & Financial Advisor
Ministry of Small Scale Industries.
21. Additional Secretary & Development
Commissioner (SSI),
Nirman Bhawan,
New Delhi.
22. Chairman-cum-Managing Director,
National Small Industries Corp. Ltd.,
Okhla Industrial Area,
New Delhi-110020.
Member-Secretary
23. Joint Secretary,
Ministry of Small Scale Industries.

2. Functions

The function of the Samiti will be to advise the Ministry regarding progarsrive use of Hindi in Official work.

3. Tenure.

The term of the Samiti will be three years from the date of formation provided that :—

- (a) Members of Parliament who are the members of the Samiti shall ceases to be member as soon as they ceases to be Member of Parliament.
- (b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises, on the Samiti due to resignation or death of a member, the member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term-for three years.

4. General

Headquarter of the Samiti will be at Udyog Bhawan, New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also.

5. Travelling and other Allowances

The non-official members will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance for attending the meeting of the Samiti at the prescribed rates as amended from time to time by the Government of India and instructions contained in O.M. No. II/20034/4/86-OL (A2) dated 22nd January, 1987 of the Department of Official Language.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, all the Ministries and Departments of the Government of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the Members of the Samiti and all State Government and Union Territory Administration.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

STUTI KACKER, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरिदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियन्त्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005